



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार 1 अक्टूबर, 2016/9 आश्विन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 2016

संख्या: एल0एल0आर0-डी(6)-20/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28-09-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2016 के अधिनियम

संख्यांक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
(डा० बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

धाराओं का क्रम

धारा:

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना ।
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।
6. विश्वविद्यालय में अध्यापन ।
7. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजिटर) ।
8. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ।
9. विश्वविद्यालय का कुलपति ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।
11. शासी परिषद् और इसका गठन ।
12. शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि ।
13. शासी परिषद् की शक्तियां ।
14. शासी परिषद् की बैठकें ।
15. कार्यकारी परिषद् ।
16. कार्यकारी परिषद् का गठन ।
17. कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की पदावधि ।
18. कार्यकारी परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।
19. कार्यकारी परिषद् की बैठकें ।
20. विद्या परिषद् ।
21. विद्या परिषद् का गठन ।
22. विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।
23. विद्या परिषद् की बैठकें ।
24. कुलपति की अस्थायी शक्तियां ।

अध्याय 4 समितियां

25. वित्त समिति।
26. वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य।
27. समाधान समिति।
28. चयन समिति।
29. स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां।

अध्याय 5 विश्वविद्यालय के अधिकारी

30. विश्वविद्यालय के अधिकारी।
31. कुलपति।
32. रजिस्ट्रार।
33. विभागाध्यक्ष।
34. अन्य अधिकारी और कर्मचारी।
35. परिनियम और विनियम।
36. प्रथम कुलपति और प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति।
37. अनुशासन।
38. नियुक्तियों की समझी गई (डीमंड) विधिमान्यता।

अध्याय 6 वित्त

39. विश्वविद्यालय की निधि।
40. वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन।

अध्याय 7 अभ्यावेशन और उपाधि

41. छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं।
42. विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण की बाबत सरकार की पॉलिसी का अनुसरण।
43. अध्ययन के निबंधन और शर्तें।
44. सम्मानिक उपाधि।
45. उपाधि या डिप्लोमे का वापस लिया जाना।

अध्याय 8

साधारण

46. संविदाओं का निष्पादन।
47. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों का अनुसरण करना।
48. पुनरीक्षण आयोग की नियुक्ति।
49. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।
50. कार्यवाहियों का रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न होना।
51. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
52. प्रायोजित स्कीम।
53. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
54. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

विद्या, अध्यापन, अनुसंधान के उद्देश्य की अभिवृद्धि के लिए और विधि के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम।**

हिमाचल प्रदेश राज्य में विधिक शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता की राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक समझा गया है;

इस उद्देश्य को अग्रसर करने में हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकीकृत परिसर को विकसित करने की पूर्ण परियोजना और शिमला में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को चलाने का स्वयं जिम्मा लिया है;

और उपरोक्त निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करना समीचीन समझा गया है;

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।

(2) यह प्रथम जुलाई, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "विधिज्ञ परिषद्" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;

(ङ) "मुख्य न्यायाधीश" से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला न्यायाधीश है;

(च) "कार्यकारी परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् अभिप्रेत है;

- (छ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ज) "शासी परिषद्" से विश्वविद्यालय की शासी परिषद् अभिप्रेत है;
- (झ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों या परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "रजिस्ट्रार" से विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (ठ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्धियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार है;
- (ड) "परिनियमों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः "परिनियम" और "विनियम" अभिप्रेत हैं;
- (ढ) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रविष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ण) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह-आचार्य या सहायक आचार्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (त) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला अभिप्रेत है; और
- (थ) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना.—(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय, "हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला" के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा तथा जो चल और अचल दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्यय करने तथा संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगा।

(3) विश्वविद्यालय घण्डल (शिमला) में स्थित होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

(क) उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समस्त स्तरों पर दूरवर्ती और सतत् विधिक शिक्षा सहित व्यापक विधिक शिक्षा का विस्तार करना और प्रदान करना ;

- (ख) विधि की समस्त शाखाओं में उच्च अध्ययन आयोजित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- (ग) व्याख्यानों, सेमिनारों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन द्वारा विधिक ज्ञान और विधिक प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान का प्रसार करना ;
- (घ) भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित विधि शासन और उद्देश्यों की अभिवृद्धि और संवर्धन के दृष्टिगत सांस्कृतिक, विधिक और नैतिक मूल्यों की अभिवृद्धि करना;
- (ङ) जनसाधारण से सम्बंधित लोक ससामयिक मामलों की प्रसुविधा के लिए और उनकी विधिक विवक्षाओं के लिए विश्लेषण करने की और प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करना ;
- (च) भारत और विदेश में उच्चतर विद्या और अनुसंधान संस्थाओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करना;
- (छ) विधि से संबंधित समस्त विषयों पर नियतकालिक पत्रिकाओं, पुस्तकों (कृतियों), अध्ययन पुस्तकों, रिपोर्टों, जर्नलों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का प्रकाशन करना;
- (ज) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां, अभिनाम (टाइटलज), डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना;
- (झ) सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए समाज में विधिक जागरूकता की अभिवृद्धि करना;
- (ञ) विधि, विधान और न्यायिक संस्थाओं से सम्बन्धित अध्ययन और प्रशिक्षण परियोजनाओं का जिम्मा लेना ; और
- (ट) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हों।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे,—

- (क) विश्वविद्यालय और अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेशों के लिए ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्धन करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
- (ख) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन और सम्बद्ध विषयों की समस्त शाखाओं में ऐसे अनुदेशों का उपबन्ध करना जैसे विश्वविद्यालय उचित समझे ;
- (ग) दूरवर्ती विद्या सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम सहित अनुसंधान और विधि के ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबन्ध करना;
- (घ) उपाधियां, अभिनाम (टाइटलज), डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां संस्थित करना ;
- (ङ) परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को ऐसी शर्तों के अधधीन, जैसी विश्वविद्यालय निर्धारित करे, उपाधियां, अभिनाम (टाइटलज), डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना तथा ऐसी उपाधियों, अभिनामों (टाइटलज), डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को ऐसी शर्तों के अधधीन, जैसी विश्वविद्यालय अवधारित करे, वापस लेना ;

- (च) ऐसी फीस और अन्य प्रभार जो सरकार को सम्यक् प्रज्ञापन के पश्चात् विहित किए जाएं, नियत करना, मांगना और प्राप्त करना;
- (छ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना और विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना और आवास के किसी ऐसे स्थान को प्रदान की गई ऐसी मान्यता को वापस लेना ;
- (ज) अनुसंधान और अनुदेशों के लिए विशेष केन्द्रों, विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों या अन्य इकाईयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;
- (झ) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारिवृन्द के आवास का पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण रखना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्थाएं करना;
- (ञ) महिला छात्रों के आवास, अनुशासन और अध्यापन की बाबत व्यवस्थाएं करना;
- (ट) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;
- (ठ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जैसे आवश्यक समझे जाएं;
- (ड) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य (रीडर) पद, प्राध्यापक पद और कोई अन्य अध्ययन, शैक्षणिक या अनुसंधान के पद संस्थित करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय में व्यक्तियों को आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अध्यापन सहायकों और अतिथि संकाय के रूप में या अन्यथा अध्यापकों और शोधार्थियों तथा कर्मचारियों के अन्य वर्गों के रूप में नियुक्त करना;
- (ण) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना;
- (त) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों का आयोजन करना;
- (थ) विधि, न्याय और सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना और जिम्मा लेना;
- (द) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के मामलों में किन्हीं अन्य संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;
- (ध) विश्व के किसी भी भाग में उच्चतर अध्ययन की संस्थाओं, जिनके उद्देश्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से पूर्णतया या अन्यथा समान हों, के साथ अध्यापकों और शोधार्थियों का साधारणतया ऐसी रीति में आदान-प्रदान करके सहयोग करना जो सामान्य उद्देश्यों हेतु सहायक हो सकें ;
- (न) विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना और लेखों का प्रबन्ध करना ;

- (प) विश्वविद्यालय के परिसरों में ऐसे स्कूलों, महाविद्यालयों और अध्ययन हालों की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना जैसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं और उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना ;
- (फ) ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों (रीडिंग रूम) की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय को सुविधाजनक या आवश्यक प्रतीत हों ;
- (ब) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उन उद्देश्यों के संगत, जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना ;
- (भ) किसी भूमि या भवन या संकर्मों का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें यह सही और उचित समझे, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हों, क्रय करना, पट्टे पर लेना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसका अनुरक्षण करना ;
- (म) विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्तियों के सम्पूर्ण या किसी भाग का ऐसे निबंधनों और शर्तों, जैसी यह उचित समझे, पर विश्वविद्यालय के हितों और कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार की पूर्व स्वीकृति से विक्रय करना, हस्तान्तरण करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;
- (य) भारत सरकार के और अन्य वचन पत्रों, विनिमय पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण करना और उन्हें स्वीकार करना, बनाना और पृष्ठांकित करना, छूट देना और परक्रामण करना;
- (यक) सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित अचल या चल सम्पत्ति की बाबत, हस्तांतरण, अन्तरण, पुनर्हस्तांतरण, बन्धक, पट्टे, अनुज्ञप्तियां और करारों को निष्पादित करना;
- (यख) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारबार के संव्यवहार के आशय से किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जैसा यह उचित समझे ;
- (यग) विश्वविद्यालय की किसी कक्षा या विभाग को न चलाना और प्रविरत हो जाना:
- परन्तु ऐसी किसी परिविरति से पूर्व सरकार को सूचित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किए बिना कि बन्द किए जाने के लिए प्रस्तावित कक्षा या विभाग में समस्त प्रविष्ट छात्रों ने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया है या उनके अध्ययन को जारी रखने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ऐसी किसी कक्षा या विभाग को बन्द नहीं किया जाएगा;
- (यघ) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना ;
- (यङ) धन, प्रतिभूति या किसी प्रकार अथवा विवरण की सम्पत्ति का अनुदान, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार करना, जैसे समीचीन समझे जाएं;
- (यच) बन्ध पत्रों, बन्धकों, वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं पर या विश्वविद्यालय की समस्त या किसी सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों पर आधारित प्रतिभूतियों पर अथवा किसी प्रतिभूति के बिना और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी यह उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना और

विश्वविद्यालय की निधियों में से धन जुटाने में आनुषंगिक समस्त व्यय संदत्त करना और उधार लिए गए किसी धन का प्रतिसंदाय करना या लिए गए ऋण का मोचन करना:

परन्तु जहां सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को अन्तरित की गई भूमि पर किसी बन्धक का सृजन किया जाना है वहां ऐसे बन्धक को किए जाने से पूर्व राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी ;

(यछ) विश्वविद्यालय की निधियों का या विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन का ऐसी प्रतिभूतियों या निक्षेपों में या पर और ऐसी रीति में जैसे यह उचित समझे, विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अंतर्विनिमयन करना ;

(यज) ऐसे परिनियमों, विनियमों और अन्य लिखतों को बनाना जो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन तथा इसकी सम्पत्तियों का विनियमन करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझी जाएं और उन्हें परिवर्तित करना, उपान्तरित करना और विखंडित करना ;

(यझ) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और अनुदान तथा अन्य स्कीमों, जो यह उचित समझे, का गठन करना तथा ऐसे अनुदान देना जिन्हें यह विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द की प्रसुविधा के लिए उचित समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों की प्रसुविधा के संगमों, संस्थाओं, निधियों और न्यासों की स्थापना तथा समर्थन में सहायता करना;

(यञ) विनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियाँ और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियाँ प्रदान करना;

(यट) इसकी समस्त या किन्हीं शक्तियों को अधिनियम या तद्धीन विरचित विनियमों के अनुसार कुलपति या किसी समिति या इसके निकाय के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों या इसके अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना ; और

(यठ) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय उपरोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी को प्राप्त करने या उनका परिवर्धन करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

6. विश्वविद्यालय में अध्यापन.—(1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, अभिनामों (टाईटलज), डिप्लोमों और प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित समस्त अध्यापन विनियमों द्वारा विहित पाठ्य विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या के अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण (अथारटीज) ऐसे होंगे जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

7. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजिटर).—(1) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका नामनिर्देशिती, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होगा।

(2) कुलाध्यक्ष (विजिटर) जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और शासी परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

8. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.—(1) मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष (विजिटर) की अनुपस्थिति में दीक्षांत समारोहों और शासी परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित इसके भवनों, पुस्तकालयों और उपस्करों और इसकी किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करवाई गई परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्य का विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जैसे वह निदेश दे, द्वारा निरीक्षण करवा सकेगा और उसी रीति में विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत जाँच करवा सकेगा।

(4) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण और जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय को ऐसा परामर्श, जैसा वह उचित समझे, दे सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय, कुलाधिपति को ऐसे परामर्श पर की गई या प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई को संसूचित करेगा।

(6) किसी मामले पर विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों के बीच मतभेद, जिसका अन्यथा समाधान नहीं किया जा सकता, की दशा में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में जब कभी वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को परामर्श देने हेतु विधि और विधिक शिक्षा में विख्यात व्यक्ति या व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकेगा।

9. विश्वविद्यालय का कुलपति.—(1) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा जिसे धारा 31 के अधीन यथा उपबन्धित रीति में नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए होगा।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

10. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :—

- (क) शासी परिषद् ;
- (ख) कार्यकारी परिषद् ;
- (ग) विद्या परिषद् ;
- (घ) वित्त समिति ; और
- (ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

11. शासी परिषद् और इसका गठन.—(1) शासी परिषद् विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राधिकरण होगी और इसका गठन निम्न प्रकार से होगा :—

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति ;
- (ग) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश;
- (घ) भारत का महान्यायवादी ;
- (ङ) वित्त मन्त्री, हिमाचल प्रदेश;
- (च) उच्चतर शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश;
- (छ) विधि मन्त्री, हिमाचल प्रदेश;
- (ज) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश;

- (झ) भारत का महा-सालिसिटर ;
- (ञ) महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश;
- (ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों में से उसका नामनिर्देशिती ;
- (ठ) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद् या उसका नामनिर्देशिती ;
- (ड) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् ;
- (ढ) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधि आयोग;
- (ण) कार्यकारी परिषद् के दो सदस्य जो शासी परिषद् के अन्यथा सदस्य न हों;
- (त) मानविकी, सामाजिक विज्ञान या विधि के क्षेत्र में कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात विद्वान;
- (थ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति ; और
- (द) हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय के, चक्रानुक्रम द्वारा कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, दो कुलपति:

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य मन्त्री वित्त, उच्चतर शिक्षा या विधि विभाग का प्रभारी मन्त्री है तो उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मन्त्री (मन्त्रीगण) सदस्य होगा/होंगे।

(2) कुलाधिपति शासी परिषद् का अध्यक्ष होगा।

12. शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि.—(1) शासी परिषद् के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी।

(2) जब कोई व्यक्ति अपने पद के फलस्वरूप शासी परिषद् का सदस्य बन जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस पद को धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(3) जब किसी व्यक्ति को शासी परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि इस रूप में उसका नामनिर्देशन, यथास्थिति, नामनिर्देशन करने वाली निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर दिया जाता है।

(4) शासी परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह,—

(क) त्याग पत्र दे देता है और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या

(ख) विकृतचित्त हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ; या

(घ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ङ) विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से भिन्न किसी पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है।

(5) शासी परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित लिखित द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा इसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(6) शासी परिषद् में कोई रिक्ति सुसंगत नामनिर्देशन करने वाले प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करता रहेगा

जब तक ऐसा सदस्य, जिसके स्थान पर नामनिर्देशन किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद धारण करता।

13. शासी परिषद् की शक्तियाँ.—शासी परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक पॉलिसियाँ और कार्यक्रम बनाना और उनका पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए उपाय सुझाना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना ;
- (ख) कार्यकारी परिषद् को ऐसे पग उठाने के निदेश देना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ;
- (ग) विश्वविद्यालय के लेखों पर वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों और अंकेक्षण रिपोर्टों पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;
- (घ) चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल में से कुलपति की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को सिफारिशें करना ; और
- (ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और पदाधिकारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विहित करने सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्धन से सम्बन्धित परिनियम बनाना।

14. शासी परिषद् की बैठकें.—(1) शासी परिषद् वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगी। शासी परिषद् की वार्षिक बैठक कार्यकारी परिषद् द्वारा नियत तारीख को आयोजित की जाएगी जब तक कि उस वर्ष की बाबत शासी परिषद् द्वारा कोई अन्य तारीख नियत न की गई हो।

(2) कुलाध्यक्ष (विजिटर), यदि उपस्थित है, और उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति, शासी परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती वर्ष की कार्यकरण रिपोर्ट, लेखों की वार्षिक विवरणी, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बजट प्राक्कलन और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के ब्यौरे शासी परिषद् की बैठक के समक्ष रखवाएगा।

(4) शासी परिषद् की बैठक कुलाधिपति द्वारा स्वयं या शासी परिषद् के कम से कम दस सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा सकेगी।

(5) शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(6) शासी परिषद् की नामावली पर आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(7) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि किसी प्रश्न पर मत बराबर होते हैं तो पीठासीन व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(8) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(9) यदि कोई आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो कुलाधिपति शासी परिषद् के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन से शासी परिषद् के सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा कारबार संव्यवहारित करना अनुज्ञात कर सकेगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि शासी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई को शासी परिषद् के समस्त सदस्यों

को तत्काल सूचित किया जाएगा । यदि सम्बद्ध प्राधिकरण मामले में निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(10) इस प्रकार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासी परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष रखी जाएगी ।

15. कार्यकारी परिषद्.—(1) कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी ।

(2) विश्वविद्यालय की निधि और सम्पत्ति के प्रशासन और प्रबन्धन की शक्तियां कार्यकारी परिषद् में निहित होंगी ।

16. कार्यकारी परिषद् का गठन.—(1) कार्यकारी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय का कुलपति ;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी परिषद् का एक सदस्य ;
- (ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;
- (घ) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ;
- (ङ) सचिव (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार ;
- (च) विधि परामर्शी एवं सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (छ) सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार ;
- (ज) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के बाहर से विधि के तीन प्राचार्य ;
- (झ) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;
- (ञ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला शासी परिषद् का एक सदस्य जो एक शिक्षाविद् हो ; और
- (ट) कुलपति द्वारा, चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दो अध्यापक जिनमें एक आचार्य और एक सह-आचार्य होगा ।

17. कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की पदावधि.—(1) कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(2) जब कोई व्यक्ति पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता है, के कारण कार्यकारी परिषद् का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह ऐसा पद या नियुक्ति धारण करने से प्रविरत हो जाता है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हो जाता है तो वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा यदि उसकी ऐसी सदस्यता का नामनिर्देशन, यथास्थिति, नामनिर्देशन करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर दिया जाता है ।

(4) कोई सदस्य कार्यकारी परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह,—

- (i) अपना त्यागपत्र देता है और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या
- (ii) विकृतचित्त हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है ; या
- (iii) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ; या
- (iv) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या (कुलपति या संकाय के सदस्य से भिन्न) विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है ।

(5) कार्यकारी परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित लिखित द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा ।

(6) कार्यकारी परिषद् में कोई रिक्ति सुसंगत प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा, जिसको भरने के लिए वह अधिकृत है, किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक ऐसा सदस्य जिसके स्थान पर नामनिर्देशन किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद धारण करता ।

18. कार्यकारी परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य.—(1) कार्यकारी परिषद्, विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण होगी और ऐसी हैसियत से इसे इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियाँ होंगी और यह इस प्रयोजन के लिए तथा उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित मामलों की बाबत विनियम भी बना सकेगी ।

(2) कार्यकारी परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) इसके द्वारा और कुलपति की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को तीन व्यक्तियों के नामों की संस्तुति करना ;

(ख) निम्नलिखित तैयार करना और शासी परिषद् को—

(i) विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर रिपोर्ट ;

(ii) लेखों की विवरणी ;

(iii) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव वित्त समिति से इसके सम्यक् अनुमोदन के पश्चात्,

इसकी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना;

(ग) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिधानों (निवेशों), सम्पत्तियों, कारबार और अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्धन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियाँ गठित करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या ऐसे अधिकारियों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना जैसी यह उचित समझे ;

(घ) विश्वविद्यालय के किसी धन को, किसी अनुपयोजित आय सहित, समय-समय पर ऐसे स्टॉकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जो यह ठीक समझे या भारत में अचल सम्पत्ति के क्रय में विनिधान करना जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार के परिवर्तन करने की शक्ति है ;

(ङ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना :

परन्तु विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल सम्पत्ति के ऐसे अन्तरण या स्वीकृति से पूर्व सरकार की सहमति ली जाएगी;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी, जैसे यह उचित समझे, नियुक्त करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्रों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों, कर्मचारियों की शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि यह उचित समझे तो उनका निवारण करना ;

(झ) अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियां अवधारित करना, सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जैसी इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं, पर ऐसे पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते विद्या परिषद् से परामर्श के पश्चात् नियत करना :

परन्तु सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा नियत फीस संरचना से अवगत करवाया जाएगा;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना; और

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसे आवश्यक समझे जाएं, या इस अधिनियम के अधीन या द्वारा इस पर अधिरोपित किए जाएं।

19. कार्यकारी परिषद् की बैठकें.—(1) कार्यकारी परिषद् चार मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(2) कार्यकारी परिषद् की बैठक से सम्बन्धित नोटिस, कुलपति के अनुदेशों के अधीन या कार्यकारी परिषद् के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाएगा।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद् के किसी सदस्य द्वारा कार्यकारी परिषद् की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(4) कार्यकारी परिषद् के आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(6) कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्यकारी परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का अपने मत के अतिरिक्त, निर्णायक मत होगा।

(7) कार्यकारी परिषद् द्वारा यदि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है तो कुलपति, कार्यकारी परिषद् के सदस्यों को कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई कार्यकारी परिषद् के समस्त सदस्यों को तत्काल सूचित कर दी जाएगी। यदि सम्बद्ध प्राधिकरण निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. विद्या परिषद्.—विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी। इसे, अधिनियम और विनियमों के अध्वधीन विश्वविद्यालय के अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को नियन्त्रित करने, विनियमन करने और अनुरक्षण करने की शक्तियां होंगी और यह शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद् को परामर्श देगी। यह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जैसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा इसे प्रदत्त या इस पर अधिरोपित किए जाएं।

21. विद्या परिषद् का गठन.—विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:—

- (क) कुलपति, जो इसका अध्यक्ष होगा ;
- (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला भारतीय विधिज्ञ परिषद् का एक सदस्य;
- (ग) हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् का एक सदस्य ;
- (घ) चक्रानुक्रम द्वारा, सरकार द्वारा, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय का एक विधि संकायाध्यक्ष;
- (ङ) समस्त विभागाध्यक्ष;
- (च) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य, जिनमें से एक सह आचार्यों का और एक सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा, एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट हो:

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उपरोक्त प्रवर्ग के अधीन नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा; और

- (छ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विधिक विद्वानों, जिन्होंने विधिक शिक्षा/अनुसंधान में ख्याति प्राप्त की हो और जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हों, में से तीन व्यक्ति।

22. विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य.—इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों के अध्याधीन विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) शासी परिषद् या कार्यकारी परिषद् द्वारा इसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी भी मामले पर रिपोर्ट करना;
- (ख) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करने, समाप्त करने या उनका वर्गीकरण करने तथा उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों की बाबत कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना;
- (ग) संकायों, स्कूलों, केन्द्रों या विशिष्ट संस्थानों के गठन के लिए स्कीमें विरचित करना, उनमें उपांतरण करना या उनका पुनरीक्षण करना और उन्हें अपने-अपने विषय सौंपना तथा कार्यकारी परिषद् के किसी संकाय, स्कूल, केन्द्र या विशिष्ट संस्थान को समाप्त करने या उसका उप-विभाजन करने या किसी एक का दूसरे के साथ संयोजन करने की समीचीनता की रिपोर्ट करना ;
- (घ) विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित (प्रविष्ट) से भिन्न व्यक्तियों को अनुदेश देने और परीक्षा के लिए विनियमों द्वारा व्यवस्था (प्रबन्ध) करना;
- (ङ) अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्टों की अपेक्षा करना;
- (च) संकायों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार करना;
- (छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पॉलिसियां अधिकथित करना;

- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमों और उपाधियों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमों और उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;
- (झ) शासी परिषद् द्वारा अधिकथित किन्हीं शर्तों के अध्वधीन, अध्वेतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता का समय, पद्धति और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;
- (ञ) परीक्षकों की नियुक्ति और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा तथा अन्य व्ययों के नियतन के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना;
- (ट) परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करना और ऐसी परीक्षाएं करवाने के लिए तारीखें नियत करना;
- (ठ) परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना या ऐसे परिणाम की घोषणा के लिए समितियां गठित करना या अधिकारी नियुक्त करना और उपाधियों, सम्मानकों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, अभिनामों (टाईटलज़) और सम्मानक प्रतीकों को प्रदान करने या देने से सम्बन्धित सिफारिशें करना ;
- (ड) वृत्तिकाओं, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी शर्तों पर जैसी पुरस्कारों से सम्बद्ध है, अन्य पुरस्कारों की व्यवस्था करना;
- (ढ) शैक्षणिक मामलों के सम्बन्ध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और समस्त ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ;
- (त) वृत्तिकाओं, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों की सिफारिश करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी शर्तों पर जैसी पुरस्कारों से सम्बद्ध है, अन्य पुरस्कारों की व्यवस्था करना ;
- (थ) विहित या संस्तुत पाठ्य पुस्तकों की सूचियां अनुमोदित या पुनरीक्षित करना और उन्हें तथा अध्ययन के विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण को प्रकाशित करना;
- (द) ऐसे प्ररूप और रजिस्टर अनुमोदित करना जैसे समय-समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों ;
- (ध) विधिक शिक्षा के वांछित मानक, जिन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने के लिए पाठ्यचर्या/पाठ्य विवरण का आलेखन करने के लिए ध्यान में रखा जाना है, समय-समय पर विरचित करना;
- (न) शैक्षणिक मामलों के सम्बन्ध में, समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और समस्त ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए विनियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

23. विद्या परिषद् की बैठकें.—(1) विद्या परिषद् उतनी बैठकें करेगी जितनी आवश्यक हों, किन्तु छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

(2) विद्यमान सदस्यों के आधे सदस्यों से विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी ।

(3) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

(4) अध्यक्ष सहित विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का अपने मत के अतिरिक्त, निर्णायक मत होगा ।

(5) विद्या परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अवसर पर बैठक में चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा ।

(6) विद्या परिषद् द्वारा यदि तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है तो विद्या परिषद् का अध्यक्ष विद्या परिषद् के सदस्यों को कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार करना अनुज्ञात कर सकेगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी गई हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को तत्काल सूचित कर दी जाएगी। यदि सम्बद्ध प्राधिकरण निर्णय लेने में असफल रहता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

24. कुलपति की अस्थायी शक्तियाँ.—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ है, वहां कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकरण की किसी भी शक्ति का प्रयोग तब तक कर सकेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता।

अध्याय 4

समितियाँ

25. वित्त समिति.—कार्यकारी परिषद् द्वारा गठित वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति;

(ख) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ग) कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन अन्य सदस्य जिनमें से एक प्राचार्य होगा:

परन्तु कुलपति और प्राचार्य से भिन्न वित्त समिति के सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक वे कार्यकारी परिषद् के सदस्य बने रहते हैं।

26. वित्त समिति की शक्तियाँ और कृत्य.—(1) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण करना और संवीक्षा करना तथा कार्यकारी परिषद् को वित्तीय मामलों पर सिफारिशें करना;

(ख) नए व्यय के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना ;

(ग) समय-समय पर विश्वविद्यालय के कालिक लेखा विवरणों पर विचार करना और वित्त का पुनरीक्षण करना, पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और उन पर कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना; और

(घ) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी भी वित्तीय मामले पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्यकारी परिषद् या कुलपति से निर्देश पर कार्यकारी परिषद् को राय देना और सिफारिशें करना।

(2) वित्त समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। बैठक के लिए वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(3) कुलपति, वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

(4) वित्त समिति के विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाएंगे ।

(5) पदों का सृजन करने और वेतनमान प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त मामले, कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखने से पूर्व वित्त समिति के समक्ष इसकी सिफारिशों के लिए लाए जाएंगे ।

27. समाधान समिति.—(1) प्रबन्धन और कर्मचारिवृन्द, प्रबन्धन और छात्रों, अध्यापकों और छात्रों तथा अध्यापकों और प्रबन्धन के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के निवारण के लिए निम्नलिखित से समाविष्ट एक विवाद समाधान समिति होगी,—

(क) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती ;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य; और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जिसका विश्वविद्यालय की किसी परिषद् या समितियों से संबंध नहीं है और जो समरूप संस्था में कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव वाला विख्यात विधि विद्वान है ।

(2) रजिस्ट्रार समाधान समिति का संयोजक होगा ।

(3) जहां विवाद लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत से सम्बन्धित है वहां समाधान समिति का पुनर्गठन लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित विधि से सामंजस्य रखने वाले कतिपय अतिरिक्त सदस्यों के सहयोजन से किया जाएगा ।

(4) कार्यकारी परिषद् या कोई लघु निकाय, जो इस प्रयोजन के लिए इसके द्वारा गठित किया जाए, अपील प्राधिकरण होगा ।

(5) समाधान समिति और अपील प्राधिकरण के कृत्यों को शासित करने के लिए नियम और विनियम ऐसे होंगे जो कार्यकारी परिषद् द्वारा विरचित किए जाएं ।

28. चयन समिति.—(1) कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय के आचार्यों, सह-आचार्यों और अन्य शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए चयन समितियों का गठन करेगी ।

(2) चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:—

(क) कुलपति ;

(ख) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो उस पद की पंक्ति से नीचे का न हो जिसके लिए चयन किया जाना है ;

(ग) जहां नियुक्ति किसी शैक्षणिक पद के लिए की जानी है तो विद्या परिषद् द्वारा संस्तुत किए गए नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ ; और

(घ) जहां किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की जानी है तो कार्यकारी परिषद् द्वारा संस्तुत किए गए नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ ।

(3) जहां विश्वविद्यालय द्वारा दाता से कोई विन्यास, आचार्य पद (चेयर) संस्थित करने के लिए स्वीकार किया जाता है वहां दाता को उस पद को भरने के प्रयोजन के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकेगा ।

(4) चयन समिति की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा आयोजित की जाएगी । कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता, उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट चयन समिति के

सदस्य द्वारा की जाएगी। चयन समिति के तीन सदस्यों, जिनमें से एक विशेषज्ञ होगा, से समिति की बैठक की गणपूर्ति होगी।

29. स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां.—इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों के अधधीन, कार्यकारी परिषद्, संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी शक्तियों वाली जैसी कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय की किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और किन्हीं कृत्यों के निर्वहन या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी मामले की जांच करने और उस पर रिपोर्ट करने या उस पर परामर्श देने के लिए, उचित समझे, ऐसी स्थायी समितियां गठित कर सकेगी या तदर्थ समितियां नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय 5

विश्वविद्यालय के अधिकारी

30. विश्वविद्यालय के अधिकारी.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

- (क) कुलपति ;
- (ख) रजिस्ट्रार ;
- (ग) विभागाध्यक्ष ; और
- (घ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

31. कुलपति.—(1) कुलपति पारंगत विद्वान और विधि में उत्कृष्ट विद्वान या विख्यात विधिवेत्ता होगा। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से, शासी परिषद् की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(3) चयन समिति, नाम प्रस्तुत करते समय शासी परिषद् को ऐसे अनुशंसित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य निष्पत्तियों को उपदर्शित करते हुए एक संक्षिप्त विवरणी भी अग्रेषित करेगी किन्तु इसमें कोई अधिमानता का क्रम उपदर्शित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि कुलाधिपति, इस प्रकार संस्तुत किसी व्यक्ति को अनुमोदित नहीं करता है तो वह नई संस्तुतियां मांग सकेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चयन समिति तीन सदस्यों से गठित होगी जिसमें एक कार्यकारी परिषद् द्वारा, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा और एक कुलाधिपति द्वारा उच्चतम न्यायालय या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीशों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति चयन समिति का संयोजक होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, चयन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

(5) कुलपति उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा। वह जब तक पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है, एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति से उसके कार्यकाल के अवसान के पश्चात् भी कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाता है या वह बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी आचार्य को कुलपति के कृत्यों का तब तक पालन करने के लिए अभिहित करने का प्राधिकार होगा जब तक कि, यथास्थिति, नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक वर्तमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपस्थित नहीं हो जाता।

(8) कुलपति,—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है और उसे वे समस्त शक्तियाँ होंगी जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं ;

(ख) शासी परिषद्, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद की बैठकें आयोजित करेगा और समस्त अन्य कृत्यों, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, का पालन करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(घ) कार्यकारी परिषद् द्वारा, विनियमों द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति के परामर्श से शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा;

(ङ) उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध विनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ;

(च) को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने से सम्बन्धित समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ; और

(छ) यदि, उसकी राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, जिस पर तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह उचित समझे और उसकी रिपोर्ट पुष्टिकरण के लिए उस प्राधिकरण की आगामी बैठक में करेगा जिसने मामले को सामान्य अनुक्रम में निपटाया होता।

32. रजिस्ट्रार.—(1) रजिस्ट्रार, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो, विधि में एक शैक्षणिक व्यक्ति होगा, की नियुक्ति, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यकारी परिषद् द्वारा गठित और कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार,—

(क) विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों, समितियों और अन्य निकायों का पदेन—सचिव होगा और समस्त बैठकों के नोटिसों और कार्यसूची के प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बैठकों के कार्यवृत्तों को नोट करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त मामलों में कुलपति का प्रधान सहायक (एडजुटेंट) होगा। कार्यकारी परिषद् उसे ऐसे विशेष उत्तरदायित्व और शक्तियाँ सौंप सकेगी, जैसी उचित समझी जाएं;

- (ग) को धारा 31 की उपधारा (8) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अध्यक्षीन, कुलपति के अनुमोदन से अन्तिम श्रेणी सेवा (लास्ट ग्रेड सर्विस) के कर्मचारियों और आकस्मिक कर्मचारिवृन्द सहित उस प्रयोजन के लिए नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों के अनुक्रम में गैर शिक्षक कर्मचारिवृन्द की विनियमों द्वारा विहित रीति में नियुक्ति करने की शक्ति होगी। वह ऐसी प्रक्रिया, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा;
- (घ) कार्यकारी परिषद् और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा; और
- (ङ) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कार्यकारी परिषद् उसके भार साधन में सपुर्द करे, का संरक्षक होगा।
- (3) रजिस्ट्रार की नियुक्ति का कार्यकाल, पांच वर्ष की अवधि या जब वह बासठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगा। वह बासठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक और कार्यकाल के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।
- (4) रजिस्ट्रार का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा कुलपति उचित समझे।

33. विभागाध्यक्ष.—(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा।

- (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, कृत्य, नियुक्तियों और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

34. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.—(1) इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को एक लिखित संविदा के अनुसार नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रहेगी तथा जिसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी या कर्मचारी को भी दी जाएगी।

- (2) विश्वविद्यालय और इसके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न किसी विवाद को, सम्बद्ध अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्राभ्यर्थना पर, विनियमों द्वारा यथाविहित, कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से समाविष्ट अधिकरण को माध्यस्थ के लिए, निर्दिष्ट किया जाएगा।

35. परिनियम और विनियम.—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे। उन्हें शासी परिषद् के समक्ष इसकी प्रथम बैठक में रखा जाएगा जो उन्हें उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अंगीकृत कर सकेगी, पश्चात्पूर्वी परिनियमों या प्रथम परिनियमों में उपांतरण शासी परिषद् द्वारा किए जाएंगे।

- (2) विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम, कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे। उन्हें कार्यकारी परिषद् के समक्ष इसकी प्रथम बैठक में रखा जाएगा जो उन्हें उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अंगीकृत कर सकेगी, पश्चात्पूर्वी विनियमों या प्रथम विनियमों में उपांतरण कार्यकारी परिषद् द्वारा किए जाएंगे।

36. प्रथम कुलपति और प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति.—इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति, जो विधि में एक विख्यात विद्वान या एक विख्यात विधिवेत्ता होगा, की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलपति का पद पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, धारण करेगा। प्रथम रजिस्ट्रार, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो, विधि में एक शैक्षणिक व्यक्ति होगा, की नियुक्ति कुलपति की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। वह

पांच वर्ष की अवधि या जब तक नियमित रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वतर हो, के लिए पद धारण करेगा।

37. अनुशासन.—(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों को विभागों, छात्रावासों और संस्थाओं के प्रमुखों (हैडज़) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा देने से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय अथवा छात्रावास या किसी संस्थान से निष्कासन के दण्ड पर, कार्यकारी परिषद् द्वारा कुलपति की रिपोर्ट पर, विचार किया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा:

परन्तु सम्बद्ध छात्र को, उसके विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई ऐसा दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

38. नियुक्तियों की समझी गई (डीम्ड) विधिमान्यता.—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात या किसी लिखत में विधि का बल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में परिनियमों या विनियमों के अनुसार किसी पद पर की गई नियुक्तियां विधिमान्य और विधि के अनुसार की गई समझी जाएंगी।

अध्याय 6

वित्त

39. विश्वविद्यालय की निधि.—(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा।

(2) निम्नलिखित, विश्वविद्यालय निधि का भाग होगी या उसमें निम्न संदत्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) सरकार, केन्द्रीय सरकार, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए समस्त अभिदाय या अनुदान ;

(ख) फीस और प्रभारों से आय सहित समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय ; और

(ग) न्यासों, वसीयतों, संदानों, विन्यासों, परिदानों और अन्य अनुदानों से प्राप्त समस्त आय या धन।

(3) विश्वविद्यालय निधि को, कार्यकारी परिषद् के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक में रखा जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय निधि का व्यय, विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किया जा सकेगा।

40. वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन.—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्यकारी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे।

(2) कार्यकारी परिषद् ऐसी तारीख, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से पूर्व आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें शासी परिषद् के समक्ष रखेगी।

(3) जहां बजट में उपबधित रकम से अधिक का व्यय उपगत किया जाना अपेक्षित हो वहां कार्यकारी परिषद्, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, के अधधीन व्यय उपगत कर सकेगी और ऐसे अधिक व्यय की रिपोर्ट शासी परिषद् को इसकी आगामी बैठक में दी जाएगी ।

(4) विश्वविद्यालय के लेखों को कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा :

परन्तु सरकार, जब कभी यह आवश्यक समझे, निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के और इसके द्वारा प्रबन्धित संस्थानों के लेखों की लेखा परीक्षा भी ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित की जाएगी, जैसे यह विनिर्दिष्ट करे ।

(5) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ लेखों को कार्यकारी परिषद् के समक्ष रखा जाएगा और इन्हें सरकार को भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) वार्षिक लेखों और वित्तीय प्राक्कलनों पर शासी परिषद् द्वारा इसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा। शासी परिषद् उसके सदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उन्हें कार्यकारी परिषद् को संसूचित कर सकेगी जो उन पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी, जैसी यह उचित समझे। कार्यकारी परिषद्, स्वयं द्वारा की गई कार्रवाई को, या कोई कार्रवाई न करने के इसके कारणों को, शासी परिषद् को इसकी आगामी बैठक में सूचित करेगी।

अध्याय 7

अभ्यावेशन और उपाधि

41. छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं.—किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक अभ्याविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न रखता हो, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

42. विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण की बाबत सरकार की पॉलिसी का अनुसरण.—(1) विश्वविद्यालय, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए और छात्रों के प्रवेश के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्तता से युक्त व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) के लिए आरक्षण की बाबत, सरकार की पॉलिसी और समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा ।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पच्चीस प्रतिशत स्थान उन छात्रों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं :

परन्तु यदि आरक्षित स्थानों के लिए निर्धारित संख्या में छात्र आवेदन करने में असफल रहते हैं तो विश्वविद्यालय ऐसे स्थानों को भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले छात्रों में से गुणागुण (मैरिट) के आधार पर भरने के लिए अधिकृत होगा ।

(3) दस स्थान, अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) या उनके द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे ।

43. अध्ययन के निबंधन और शर्तें.—विश्वविद्यालय का छात्र ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अध्ययन करेगा जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

44. सम्मानिक उपाधि.—शासी परिषद्, विद्या परिषद् के दो-तिहाई सदस्यों से अन्यून की संस्तुति पर संकल्प द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसके पास विख्यात प्राप्ति और पद हो, सम्मानिक उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्रदान कर सकेगी ।

45. उपाधि या डिप्लोमे का वापस लिया जाना.—(1) शासी परिषद्, कार्यकारी परिषद् की संस्तुति पर किसी ऐसे व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध है या वह घोर अवचार का दोषी है, को प्रदत्त किन्हीं उपाधियों, अभिनामों (टाइटलज), डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों या विशेषाधिकार को, शासी परिषद् की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प और शासी परिषद् के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा वापस ले सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई किए जाने के विरुद्ध कारण बताने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(3) शासी परिषद् द्वारा इस प्रकार पारित संकल्प तत्काल प्रभावी हो जाएगा और उसकी प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

अध्याय 8

साधारण

46. संविदाओं का निष्पादन.—विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं कार्यकारी परिषद् द्वारा की गई कही जाएंगी और जब संविदा का मूल्य पच्चीस लाख रुपए से अधिक हो तो ऐसी संविदाएं कार्यकारी परिषद् की ओर से कुलपति द्वारा निष्पादित की जाएंगी तथा जब संविदा का मूल्य पच्चीस लाख रुपए से अधिक न हो तो रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित की जाएगी ।

47. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों का अनुसरण करना.—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों की अनुपालना करने तथा ऐसे निकायों को ऐसी समस्त प्रसुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा जैसी उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने और उनके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित हों ।

48. पुनरीक्षण आयोग की नियुक्ति.—(1) कुलाधिपति, प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यों का पुनरीक्षण करने और सिफारिशें करने के लिए, एक आयोग का गठन करेगा ।

(2) आयोग, सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त, तीन से अनधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों से गठित होगा, जिनमें से एक कुलपति होगा ।

(3) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाएं ।

(4) आयोग ऐसी जांच, जैसी यह उचित समझे, करने के पश्चात् कुलाधिपति को अपनी सिफारिशें करेगा ।

(5) कुलाधिपति सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह उचित समझे ।

49. विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.—विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

50. कार्यवाहियों का रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न होना.—विश्वविद्यालय या निकाय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने पर या ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी ।

51. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम अथवा विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित नहीं किया जाएगा या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी या उनसे किसी नुकसान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

52. प्रायोजित स्कीम.—इस अधिनियम या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी विश्वविद्यालय, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी स्कीम को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियाँ प्राप्त करता है, तो—

(क) प्राप्त रकम को विश्वविद्यालय द्वारा एक पृथक् लेखे में रखा जाएगा और उसे केवल स्कीम के प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा ; और

(ख) ऐसी स्कीम को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृन्द को प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही भर्ती किया जाएगा ।

53. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—यदि, इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा या अवसर की अपेक्षानुसार, कोई ऐसी बात, जहां तक इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों के साथ संगत हो, कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो। प्रत्येक ऐसे आदेश का वही प्रभाव होगा मानो ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम या विनियमों के अधीन की गई हो :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

54. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2016

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II THE UNIVERSITY

3. Establishment of the University.
4. Objects of the University.

5. Powers and functions of the University.
6. Teaching in the University.
7. Visitor of the University.
8. Chancellor of the University.
9. Vice-Chancellor of the University.

CHAPTER-III AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

10. Authorities of the University.
11. The Governing Council and its constitution.
12. Term of office of members of the Governing Council.
13. Powers of the Governing Council.
14. Meetings of the Governing Council.
15. Executive Council.
16. Constitution of the Executive Council.
17. Term of office of the members of the Executive Council.
18. Powers and functions of the Executive Council.
19. Meetings of the Executive Council.
20. Academic Council.
21. Constitution of the Academic Council.
22. Powers and functions of the Academic Council.
23. Meetings of the Academic Council.
24. Transitory powers of the Vice-Chancellor.

CHAPTER-IV COMMITTEES

25. Finance Committee.
26. Powers and functions of the Finance Committee.
27. Samadhan Committee.
28. Selection Committee.
29. Standing Committee and ad-hoc committees.

CHAPTER-V OFFICERS OF THE UNIVERSITY

30. Officers of the University.
31. The Vice-Chancellor.
32. The Registrar.
33. Heads of Department.
34. Other officers and employees.
35. Statutes and regulations.
36. Appointment of first Vice-Chancellor and first Registrar.
37. Discipline.
38. Deemed validity of appointments.

CHAPTER-VI FINANCE

39. University Fund.
40. Annual accounts and financial estimates.

CHAPTER-VII
ENROLMENT AND DEGREE

41. Qualifications for admission of students.
42. University to follow Government policy in regard to reservation.
43. Terms and conditions of study.
44. Honorary degree.
45. Withdrawal of degree or diploma.

CHAPTER-VIII
GENERAL

46. Execution of contracts.
47. University to follow rules, regulations, norms of the regulating bodies.
48. Appointment of Review Commission.
49. Officers and employees to be public servant.
50. Proceedings not invalidated by vacancies.
51. Protection of action taken in good faith.
52. Sponsored Scheme.
53. Power to remove difficulties.
54. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2016 and savings.

Act No. 16 of 2016

**THE HIMACHAL PRADESH NATIONAL LAW UNIVERSITY
ACT, 2016**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

to provide for the establishment of a University by the name of Himachal Pradesh National Law University, Shimla and for matters connected therewith or incidental thereto for advancement of cause of learning, teaching, research and dissemination of knowledge in the field of law.

WHEREAS, it is considered necessary to encourage the establishment of a national level institution of excellence in the field of legal education and research in the State of Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, in furtherance to this object, the Government of Himachal Pradesh and the High Court of Himachal Pradesh have taken unto themselves the complete project of developing the integrated complex and running the National Law University at Shimla, for attainment of this object;

AND WHEREAS, it is deemed expedient to establish the National Law University for the purpose hereinbefore appearing.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh National Law University Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of July, 2016.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Academic Council” means the Academic Council of the University;
- (b) “Bar Council” means the Bar Council of Himachal Pradesh constituted under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (c) “Bar Council of India” means the Bar Council of India constituted under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (d) “Chancellor” means the Chancellor of the University;
- (e) “Chief Justice” means the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh and includes the Judge performing the duties of the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh in absence of the Chief Justice;
- (f) “Executive Council” means the Executive Council of the University;
- (g) “Finance Committee” means the Finance Committee of the University;
- (h) “Governing Council” means the Governing Council of the University;
- (i) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (j) “prescribed” means prescribed by regulations or statutes made under this Act;
- (k) “Registrar” means the Registrar of the University;
- (l) “regulating body” means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as the University Grants Commission, Bar Council of India, and includes the Government;
- (m) “statutes and regulations” means the “statutes” and “regulations” respectively of the University made under this Act;
- (n) “student” means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

- (o) “teacher” means a Professor, Associate Professor or Assistant Professor or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the student for pursuing a course of study of the University;
- (p) “University” means the Himachal Pradesh National Law University, Shimla established under section 3 of this Act; and
- (q) “Vice-Chancellor” means the Vice-chancellor of the University.

CHAPTER-II THE UNIVERSITY

3. Establishment of the University.—(1) There shall be established, in the State of Himachal Pradesh, a University by the name of the Himachal Pradesh National Law University, Shimla.

(2) The University shall be a body corporate by the name of “Himachal Pradesh National Law University, Shimla” having perpetual succession and a common seal, and may sue or be sued by the said name and shall be competent to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and to do all things necessary for the purposes of this Act.

(3) The seat of the University shall be at Ghandal (Shimla).

4. Objects of the University.—The objects of the University shall be,—

- (a) to evolve and impart comprehensive legal education including distant and continuing legal education at all levels to achieve excellence;
- (b) to organize advanced studies and promote research in all branches of law;
- (c) to disseminate legal knowledge and legal processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;
- (d) to promote cultural, legal and ethical values with a view to promote and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution of India;
- (e) to improve the ability to analyse and present for the benefit of the public contemporary issues of public concern and their legal implications;
- (f) to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad;
- (g) to publish periodicals, treatises, study books, reports, journals, magazines and other literature on all subjects relating to law;
- (h) to hold examinations and confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (i) to promote legal awareness in the community for achieving social and economic justice;

- (j) to undertake study and training projects relating to law, legislation and judicial institutions; and
- (k) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

5. Powers and functions of the University.—The powers and functions of the University shall be,—

- (a) to administer and manage the University and such centers for study, research, education and instructions as are necessary in furtherance of the objects of the University;
- (b) to provide for instructions in all branches of knowledge or learning pertaining to law and allied subjects as the University may deem fit;
- (c) to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law including through distance learning continuing education programmes;
- (d) to institute degrees, titles, diplomas, certificates and other distinctions;
- (e) to hold examinations and to confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions subject to such conditions as the University may determine;
- (f) to fix demand and receive fees and other charges as may be prescribed after due intimation to the Government;
- (g) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;
- (h) to establish special centers, specialized study centers or other units for research and instructions as are, in the opinion of the University, necessary in furtherance of its objects;
- (i) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of the students and staff of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (j) to make such arrangements in respect of residence, discipline and teaching of women students;
- (k) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
- (l) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

- (m) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, readerships, lectureships and any other teaching, academic or research posts required by the University;
- (n) to appoint persons as Professors, Associate Professors, Assistant Professors, teaching assistants and visiting faculty or otherwise as teachers and researchers of the University and other classes of employees;
- (o) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;
- (p) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;
- (q) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;
- (r) to co-operate with any other organizations in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed on such terms and conditions as the University may from time to time determine;
- (s) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or otherwise similar to those of the University by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;
- (t) to regulate the expenditure and to manage accounts of the University;
- (u) to establish and maintain within the premises of the University such schools, colleges and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same;
- (v) to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University;
- (w) to receive grants, subventions, subscriptions; donations and gifts for the purpose of the University consistent with the objects for which University is established;
- (x) to purchase, take on lease, or accept as gifts, or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;
- (y) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms and conditions as it may think fit and proper without prejudice to the interests and activities of the University with the prior concurrence of the Government;
- (z) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate with the Government of India and other promissory notes, acts of exchanges, cheques or other negotiable instruments;

- (za) to execute conveyances, transfers, re-conveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University with the concurrence of the Government;
- (zb) to appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as it may deem fit;
- (zc) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University :

Provided that the Government shall be informed before any such cessation and no such class or department shall be closed without ensuring that all the admitted students have completed their study in the class or department proposed to be closed or without making an alternative arrangement for the continuation of their study;

- (zd) to enter into agreement with the Central Government, Government, University Grants Commission or other authorities for receiving grants;
- (ze) to accept grant of money, security or property of any kind or description on such terms and conditions as may deem expedient;
- (zf) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed or debt made :

Provided that where the mortgage is to be created on the land transferred to the University by the Government, concurrence of the Government shall be taken before creation of such mortgage;

- (zg) to invest the funds of the University or moneys entrusted to the University in or upon such securities or deposits and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investments;
- (zh) to make such statutes, regulations and other instruments as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and its properties and to alter, modify and rescind them;
- (zi) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, pension, insurance, provident fund and gratuity and other schemes as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of the staff of the University and to aid in the establishment and support of associations, institutions, funds and trusts for the benefit of the staff and the students of the University;
- (zj) to confer honorary degrees and other distinctions in the manner laid down in the regulations;

- (zk) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or to any one or more members of its body or its officers in accordance with the Act or the regulations framed thereunder; and
- (zl) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any of them.

6. Teaching in the University.—(1) All teaching in connection with the degrees, titles, diplomas and certificates of the University shall be conducted in accordance with the syllabi prescribed by the regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the regulations.

7. Visitor of the University.—(1) The Chief Justice of India or his nominee, who shall be senior Judge of the Supreme Court, shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor, when present, shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Governing Council.

8. Chancellor of the University.—(1) The Chief Justice shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall preside over the convocations and the meetings of the Governing Council in absence of the Visitor.

(3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipments and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry.

(5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice.

(6) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved, the decision of the Chancellor shall be final.

(7) The Chancellor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

9. Vice-Chancellor of the University.—(1) There shall be a Vice-Chancellor of the University who shall be appointed in the manner as provided under section 31.

(2) The term of the Vice-Chancellor shall be for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

CHAPTER-III AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

10. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University :—

- (a) the Governing Council;
- (b) the Executive Council;
- (c) the Academic Council;
- (d) the Finance Committee; and
- (e) such other authorities as may be declared by the University by regulation to be the authorities of the University.

11. The Governing Council and its constitution.—(1) The Governing Council shall be the supreme authority of the University and shall have the following constitution :—

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) one Judge of Supreme Court, to be nominated by the Visitor;
- (d) the Attorney General of India;
- (e) the Minister for Finance, State of Himachal Pradesh;
- (f) the Minister for Higher Education, State of Himachal Pradesh;
- (g) the Minister for Law, State of Himachal Pradesh;
- (h) two Judges of the High Court of Himachal Pradesh nominated by the Chancellor;
- (i) the Solicitor General of India;
- (j) the Advocate General, State of Himachal Pradesh;
- (k) the Chairperson of the University Grants Commission or his nominee from among the members of the University Grants Commission;
- (l) the Chairman, Bar Council of India or his nominee;
- (m) the Chairman, Bar Council of Himachal Pradesh;
- (n) Chairman, Himachal Pradesh State Law Commission;
- (o) two members of the Executive Council as are not otherwise members of the Governing Council;

- (p) an eminent scholar in the field of Humanities Social Sciences or Law, nominated by the Chancellor;
- (q) two distinguished persons, to be nominated by the Chancellor; and
- (r) two Vice-Chancellors of other Universities established by law in the State of Himachal Pradesh, by rotation, to be nominated by the Chancellor :

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under the foregoing clauses :

Provided further that if Minister-in-charge of the Departments of Finance, Higher Education or Law is Chief Minister, any Minister(s) nominated by him shall be the member(s).

- (2) The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Council.

12. Term of office of members of the Governing Council.—(1) The term of office of the members of the Governing Council shall be five years.

(2) When a person becomes member of the Governing Council by virtue of his office, he shall cease to be such member if he ceases to hold that office.

(3) When a person is nominated as a member of the Governing Council, he shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

- (4) A member of the Governing Council shall cease to be a member, if he,—

- (a) tenders his resignation and such resignation is accepted; or
- (b) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) becomes undischarged insolvent; or
- (d) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (e) has accepted a full time appointment to the post in the University other than the post of Vice-Chancellor.

(5) A member of the Governing Council may, by writing, addressed to the Chancellor, resign from his office and such resignation shall take effect on the date it is accepted by the Chancellor.

(6) Any vacancy in the Governing Council shall be filled in by nomination of a person by the relevant nominating authority and the person so nominated shall hold office for so long as the member in whose place he is nominated would have held office had the vacancy not occurred.

13. Powers of the Governing Council.—The Governing Council shall have the following powers, namely:—

- (a) to formulate and review the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the development of the University and devise measures for the improvement and development of the University;
- (b) to direct the Executive Council to take such steps as are necessary for achieving the objects of the University;
- (c) to consider and pass resolution on the annual report, financial estimates and audit reports on the accounts of the University;
- (d) to make recommendations to the Chancellor for the appointment of Vice-Chancellor out of the panel recommended by the Selection Committee; and
- (e) to make statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedure to be followed by the authorities and the office bearers of the University in the discharge of the functions.

14. Meetings of the Governing Council.—(1) The Governing Council shall meet at least once in a year. The annual meeting of the Governing Council shall be held on a date fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Governing Council in respect of a year.

(2) The Visitor, if present, and in his absence Chancellor shall preside over the meeting of the Governing Council and in the absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall cause to be laid before the meeting of the Governing Council, a report of the working of the previous year of the University, the annual statement of accounts together with the report of auditors thereon and the budget estimates and the income and expenditure for the next financial year.

(4) The meeting of the Governing Council may be called by the Chancellor, either of his own or at the request of not less than ten members of the Governing Council.

(5) For every meeting of the Governing Council fifteen days notice shall be given.

(6) One-half of the members on the rolls of the Governing Council shall form the quorum.

(7) Each member shall have one vote and if there be equal votes on any question, then presiding person shall have the casting vote.

(8) In case of difference of opinion among members, the opinion of the majority shall prevail.

(9) If any urgent action is required, the Chancellor may, with the approval of the majority of the members of the Governing Council, permit the business to be transacted by circulation among the members of the Governing Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed by the majority of members of the Governing Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all members of the Governing Council. In case authority concerned fails to take decision the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(10) The report of the action so taken shall be placed before the next meeting of the Governing Council.

15. Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the chief executive body of the University.

(2) The powers of administration and management of the fund and property of the University shall vest in the Executive Council.

16. Constitution of the Executive Council.—The Executive Council shall consist of the following members, namely :—

- (a) the Vice-Chancellor of the University
- (b) a member of the Governing Council, nominated by the Chancellor;
- (c) the Chief Secretary to the Government or an officer not below the rank of the Secretary to the Government, to be nominated by him;
- (d) Secretary (Finance) to the Government;
- (e) Secretary (Higher Education) to the Government;
- (f) LR-cum-Secretary (Law) to the Government;
- (g) Secretary (Home) to the Government;
- (h) three Professors of Law outside the University, to be nominated by the Chancellor;
- (i) Chairman, Bar Council of Himachal Pradesh or his nominee;
- (j) a member of the Governing Council, who is an educationist, to be nominated by the Chancellor; and
- (k) two teachers of whom one shall be Professor and one shall be Associate Professor of the University, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation.

17. Term of office of the members of the Executive Council.—(1) The term of office of members of the Executive Council shall be three years.

(2) When a person becomes a member of the Executive Council by reason of office or appointment he holds, his membership shall stand terminated when he ceases to hold such office or appointment.

(3) When a person is nominated as a member of the Executive Council, he shall cease to be such member if his nomination of such membership is withdrawn by the nominating body or person, as the case may be.

(4) A member of the Executive Council shall cease to be a member if he,—

- (i) tenders his resignation and such resignation is accepted; or
- (ii) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (iii) becomes undischarged insolvent; or

- (iv) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or (other than the Vice-Chancellor or member of the Faculty) has accepted a full time appointment in the University.

(5) A member of the Executive Council may, by writing addressed to the Chancellor, resign from his office, and such resignation shall take effect on the date it is accepted by the Chancellor.

(6) Any vacancy in the Executive Council shall be filled in by nomination of a person by the relevant authority entitled to make the same and the person so nominated shall hold office so long as the member in whose place he is nominated would have held office had the vacancy not occurred.

18. Powers and functions of the Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the chief executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the statutes made thereunder; and may make regulations for that purpose and also with respect to matters provided under sub-section (2).

(2) The Executive Council shall have the following powers and functions, namely :—

- (a) to recommend the names of three persons to the Chancellor for appointment as Registrar of the University on the recommendations of the selection committee constituted for that purpose by it and headed by the Vice-Chancellor;
- (b) to prepare and present to the Governing Council at its annual meeting—
 - (i) a report on the working of the University;
 - (ii) a statement of accounts;
 - (iii) budget proposals for the ensuing academic year after its due approval from the Finance Committee;
- (c) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;
- (d) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities, as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;
- (e) to transfer or accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the University :

Provided that the concurrence of the Government shall be taken before such transfer or acceptance of any immovable property on behalf of University;

- (f) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

- (g) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (h) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, teachers, students and employees of the University;
- (i) to create teaching, administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts on such terms and conditions of service as may be prescribed by the regulations made in this behalf;
- (j) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council :

Provided that the Government shall be apprised of the fee structure fixed by the University;

- (k) to select a common seal for the University; and
- (l) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary, or imposed on it by or under this Act.

19. Meetings of the Executive Council.—(1) The Executive Council shall meet at least once in four months and not less than 15 days notice shall be given of such meeting.

(2) The notice regarding meeting of the Executive Council shall be issued by the Registrar under the instructions of the Vice-Chancellor or on the request of the Executive Council.

(3) The Vice-Chancellor or in his absence, any member of the Executive Council, nominated by the Vice-Chancellor, shall preside over the meeting of the Executive Council.

(4) One-half of the members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting.

(5) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(6) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(7) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Executive Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

20. Academic Council.—The Academic Council shall be the academic body of the University. It shall have powers, subject to the provisions of this Act and the regulations, to control, regulate and maintain the standards of instructions, education and examination of the University

and advise the Executive Council on academic matters. It shall exercise such other powers, and shall perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it by this Act or the regulations.

21. Constitution of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely :—

- (a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman;
- (b) a member of the Bar Council of India, to be nominated by the Chairman of the Bar Council of India;
- (c) a member of the Bar Council of Himachal Pradesh, to be nominated by the Chairman of the Bar Council of Himachal Pradesh;
- (d) one Dean of law faculty of any other University established by Law in the State of Himachal Pradesh, by rotation, to be nominated by the Government;
- (e) all heads of departments;
- (f) two members of the teaching staff one each representing the Associate and Assistant Professors of the University, nominated by the Vice-Chancellor, for a period of one year on rotation :

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under above category; and

- (g) three persons amongst legal academicians who have achieved their place of eminence in legal education/research and who are not in the services of the University, to be nominated by the Chancellor.

22. Powers and functions of the Academic Council.—Subject to the provisions of this Act and the regulations, the Academic Council shall have the following powers and functions, namely:—

- (a) to report on any matter referred to or delegated to it by the Governing Council or the Executive Council;
- (b) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and qualifications, emoluments and the duties attached thereto;
- (c) to formulate, modify or revise schemes for the organization of the faculties, schools, centers or specialized institutes, and to assign to them their respective subjects and also to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty, school, center or specialized institute, or the combination of one with another;
- (d) to make arrangements by regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
- (e) to promote research and to require reports on such research;

- (f) to consider proposal submitted by faculties;
- (g) to lay down policies for admission to the University.
- (h) to recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;
- (i) to fix, subject to any conditions laid by the Governing Council, the time, mode and conditions of competition for fellowships, scholarships and other prizes, and to award the same;
- (j) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;
- (k) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding such examinations;
- (l) to declare the result of examinations, or to appoint committees or officers for declaration of such result, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, certificates, titles and marks of honour;
- (m) to award stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and on such conditions as may be attached to the awards;
- (n) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for carrying out the provisions of this Act and the regulations.
- (o) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
- (p) to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same and syllabus and the prescribed courses of study;
- (q) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the regulations;
- (r) to formulate, from time to time, the desired standards of legal education to be adhered to drawing up the curriculum /syllabi for being taught in the University; and
- (s) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the regulations made thereunder.

23. Meetings of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet as many times as may be necessary, but at least once in six months.

(2) One-half of the existing members shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(3) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(4) Each member of the Academic Council, including the Chairman, shall have one vote and if there is an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman, or, as the case may be, the member presiding over the meetings shall, in addition, have a casting vote.

(5) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.

(6) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of the papers to the members of the Academic Council. The action so proposed shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

24. Transitory powers of the Vice-Chancellor.—Where any authority of the University is not constituted, the Vice-Chancellor, with the approval of the Chancellor, may discharge all or any of the functions of such authority and, for that purpose, may exercise any power of such authority till such authority is constituted.

CHAPTER-IV COMMITTEES

25. Finance Committee.—Finance Committee constituted by the Executive Council shall consist of the following members, namely:—

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Secretary (Finance) to the Government;
- (c) three members, nominated by the Executive Council of whom one shall be Professor :

Provided that members of the Finance Committee, other than Vice-Chancellor and Professor shall hold office so long as they continue to be members of Executive Council.

26. Powers and functions of the Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall have the following powers and functions, namely :—

- (a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;
- (b) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;
- (c) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University, from time to time, to consider re-appropriation statements and audit reports, and to make recommendations thereon to the Executive Council; and

- (d) to give views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matters affecting the University, either on its own motion or on a reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(2) The Finance Committee shall meet at least once in every six months. Three members of the Finance Committee shall form the quorum for a meeting.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his absence a member elected at a meeting shall preside.

(4) The decisions of the Finance Committee shall be taken by simple majority of the members present and voting.

(5) All matters relating to creation of posts and grant of scales shall be brought before the Finance Committee for its recommendations before being placed before the Executive Council.

27. Samadhan Committee.—(1) There shall be a Dispute Samadhan Committee to redress the dispute that may arise between the management and staff, management and students, teachers and students and teachers and management, comprising,—

- (a) the Vice-Chancellor or his nominee;
- (b) one member of the Executive Council, nominated by the Chancellor; and
- (c) one member, nominated by the Chancellor, who is not part of any of the council or committees to the University and who is a distinguished law academic with at least fifteen years' experience in a similar institution.

(2) The Registrar shall be the convener of the Samadhan Committee.

(3) Where the dispute relates to a complaint of sexual harassment, the Samadhan Committee shall be reconstituted by co-opting certain additional members consistent with the law relating to sexual harassment.

(4) The Executive Council, or any smaller body, that may be constituted by it for this purpose, shall be the Appellate Authority.

(5) The rules and regulations governing the functioning of the Samadhan Committee and the Appellate Authority shall be as framed by the Executive Council.

28. Selection Committee.—(1) The Executive Council shall constitute Selection Committee for making recommendations for appointment to the posts of Professors, Associate Professors and other teachers of the University.

(2) The Selection Committee shall consist of the following members, namely :—

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Head of the Department concerned, if any, who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;
- (c) where an appointment is to be made to any academic post, three experts nominated by the Vice-Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council; and

- (d) Where appointment is to be made to any administrative post, three experts in the fields of University administration, nominated by the Vice-Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Executive Council.

(3) Where an endowment from a donor is accepted by the University for instituting a Chair, the donor may be co-opted as a member of the Selection Committee for the purpose of filling in that post.

(4) The meeting of the Selection Committee shall be convened by the Vice-Chancellor whenever necessary. The Vice-Chancellor or in his absence, a member of Selection Committee nominated by him shall preside over the meeting of the Selection Committee. Three members of the Selection Committee of whom one shall be an expert, shall form the quorum for a meeting of the Committee.

29. Standing Committee and ad-hoc committees.—Subject to the provisions of this Act and the regulations, the Executive Council may, by resolution, constitute such Standing Committees or appoint *ad-hoc* committees of such persons, for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or inquiring into and reporting or advising upon, any matter relating to the University.

CHAPTER-V OFFICERS OF THE UNIVERSITY

30. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University :—

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Registrar;
- (c) Heads of the Departments; and
- (d) such other officers as may be prescribed by the statutes or regulations.

31. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be an accomplished academician and an outstanding scholar in law or an eminent jurist. He shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Governing Council from out of a panel of not less than three persons recommended by the Selection Committee constituted under sub-section (4).

(3) The Selection Committee shall, while submitting the names, also forward to the Governing Council a concise statement showing the academic qualifications and other accomplishments of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference :

Provided that if the Chancellor does not approve any of the persons so recommended, he may call for the fresh recommendations.

(4) The Selection Committee referred to in sub-section(2) shall consist of three members of whom one shall be nominated by the Executive Council, one by the Chairman, University Grants

Commission and one by the Chancellor from among the retired or serving Judges of the Supreme Court or the High Court of Himachal Pradesh. The person nominated by the Chancellor shall be the convener of the Selection Committee :

Provided that no person who is an employee of the University shall be nominated as the member of the Selection Committee.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment for another term till he attains the age of sixty-five years :

Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor after his term has expired to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year as may be specified by him until he attains the age of sixty-five years.

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as prescribed by regulations.

(7) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Chancellor shall have the authority to designate a professor of the University to perform the functions of the Vice-Chancellor until the new Vice-Chancellor assumes his office or until the existing Vice-Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

(8) The Vice-Chancellor shall,—

- (a) ensure that the provisions of this Act, statutes and regulations are duly observed, and he shall have all powers as are necessary for that purpose;
- (b) convene the meetings of the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;
- (c) preside over the meetings of the Governing Council in the absence of the Chancellor;
- (d) be the competent authority to appoint the teachers, librarians, finance officer and other officers in consultation with the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee appointed by the Executive Council thereof for that purpose in accordance with the guidelines prescribed by regulations;
- (e) be the competent authority to take disciplinary action against the above officers in accordance with the procedure prescribed by regulations;
- (f) have all powers relating to the maintenance of proper discipline in the University; and
- (g) if, in his opinion, any emergency has arisen which requires that immediate action be taken, he shall take such action as he may deem fit and shall report the same for confirmation in the next meeting of the authority which, in the ordinary course, would have dealt with the matter.

32. The Registrar.—(1) The Registrar shall be an academic person in law not below the rank of a Professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Executive Council and headed by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of the statutes and regulations.

(2) The Registrar shall,—

- (a) be ex-officio Secretary of all the authorities, committees and other bodies of the University and shall be responsible for circulation of notices and agenda of all the meetings. He shall note and maintain the minutes of the meetings;
- (b) be the principal adjutant of the Vice-Chancellor in all matters pertaining to the administration of the University. The Executive Council may entrust to him special responsibilities and powers as may be deemed fit;
- (c) subject to the provisions of clause (d) of sub-section (8) of section 31, have the power to appoint, with the approval of the Vice-Chancellor, the non-teaching staff, including employees of last grade service and contingent staff in pursuance of the recommendations of the Selection Committee, appointed for that purpose, in the manner prescribed by regulations. He shall be the competent authority to take disciplinary action against such employees in accordance with such procedure as may be prescribed by regulations;
- (d) comply with all directions and orders of the Executive Council and Vice-Chancellor; and
- (e) be the custodian of records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge.

(3) The term of appointment of the Registrar shall be for a period of five years or till he attains the age of sixty two years, whichever is earlier. He shall be eligible for re-appointment by the Vice-Chancellor, with the approval of the Chancellor, for another term till he attains the age of sixty two years.

(4) In the event of the post of Registrar remaining vacant for any reason, it shall be open to the Vice-Chancellor to authorize any officer of the University to exercise such powers, functions and duties as the Vice-Chancellor may deem fit.

33. Heads of Department.—(1) There shall be a Head for each Department in the University.

(2) The powers, functions, appointments and conditions of service of the Heads of the Departments shall be as prescribed by regulations.

34. Other officers and employees.—(1) Subject to the regulations made for the purpose, every officer or employee of the University shall be appointed in accordance with a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or employees concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned or at the instance of the

University, be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by regulations.

35. Statutes and regulations.—(1) First statutes of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Governing Council at its first meeting, which may adopt them with or without modifications. Subsequent statutes or modifications in the First statutes shall be made by the Governing Council.

(2) First regulations of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Executive Council at its first meeting which may adopt them with or without modifications. Subsequent regulations or modifications in the first regulations shall be made by the Executive Council.

36. Appointment of first Vice-Chancellor and first Registrar.—Notwithstanding anything contained in this Act and the statutes, the first Vice-Chancellor who shall be an accomplished academician in law or an eminent jurist shall be appointed by the Chancellor and shall hold office of the Vice-Chancellor for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. The first Registrar shall be an academic person in law not below the rank of a Professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor. He shall hold office for a period of five years or till a regular Registrar is appointed, whichever is earlier.

37. Discipline.—(1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of Departments, hostels and institutions.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the punishment of debarring a student from an examination, or rustication from the University, or a hostel or an institution shall, on the report of the Vice-Chancellor, be considered and imposed by the Executive Council :

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned a reasonable opportunity of being heard to show cause against the action proposed to be taken against him.

38. Deemed validity of appointments.—Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law, for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the statutes or regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.

CHAPTER-VI FINANCE

39. University Fund.—(1) The University shall establish a fund to be called the University Fund.

- (2) The following shall form part of, or be paid into, the University Fund, namely :—
- (a) all contributions or grants made by the Government, the Central Government, the Bar Council of India, the Bar Council of Himachal Pradesh or the University Grants Commission;
 - (b) the income of the University from all sources including income from fees and charges; and

- (c) all income or money from trusts, bequests, donations, endowments, subventions and other grants.

(3) The University Fund shall, at the discretion of the Executive Council, be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934, or in a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(4) The University Fund may be expended for such purpose of the University and in such manner, as may be prescribed by regulations.

40. Annual accounts and financial estimates.—(1) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.

(2) The Executive Council shall prepare, before such date as may be prescribed by regulations, the annual financial estimates for the ensuing year and place the same before the Governing Council.

(3) Where an expenditure in excess of the amount provided in the budget is required to be incurred, the Executive Council may, for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such conditions and restrictions as may be prescribed by regulations and a report of such excess expenditure shall be made to the Governing Council at its next meeting.

(4) The accounts of the University shall be audited by the auditors appointed by the Executive Council :

Provided that the Government may, whenever it considers necessary, direct that audit of the accounts of the University, including the institutions managed by it, shall be audited by such auditors as it may specify.

(5) The accounts together with the audit report shall be placed before the Executive Council and shall also be submitted to the Government.

(6) The annual accounts and the financial estimates shall be considered by the Governing Council at its annual meeting. The Governing Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council, which shall take them into consideration and take such action thereon as it thinks fit. The Executive Council shall inform the Governing Council at its next meeting of the action taken by it or its reasons for taking no action.

CHAPTER-VII ENROLMENT AND DEGREE

41. Qualifications for admission of students.—No student shall be enrolled as a student of the University, unless he possesses such qualifications as may be prescribed by regulations.

42. University to follow Government policy in regard to reservation.—(1) The University shall adopt the policy of the Government and orders issued, from time to time, in regard to the reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities (PWD) for appointment to different posts and for the purpose of admission of students.

(2) Twenty five percent of the seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide residents of Himachal Pradesh :

Provided that if the requisite number of students fail to apply for the reserved seats, University shall be entitled to fill such seats on the basis of merit from the students residing anywhere in India.

(3) Ten seats shall be reserved for Non Resident Indians or the persons sponsored by them.

43. Terms and conditions of study.—A student of the University shall study on such terms and conditions as may be prescribed by regulations.

44. Honorary degree.—The Governing Council may, on the recommendations of not less than two-third of members of the Academic Council, confer by resolution, honorary degree or academic distinction, on a person who has eminent attainment and position.

45. Withdrawal of degree or diploma.—(1) The Governing Council may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any degree, title, diploma, certificate, other distinction or privilege conferred on, or granted to, any person who has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct, by a resolution passed by majority of the total membership of the Governing Council and by a majority of not less than two-third of the members of the Governing Council present and voting.

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity of being heard to show cause against the action proposed to be taken.

(3) The resolution so passed by the Governing Council shall take effect immediately and the copy of the same shall be sent to the person concerned.

CHAPTER-VIII

GENERAL

46. Execution of contracts.—All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed to be made by the Executive Council and such contracts shall be executed on behalf of the Executive Council by the Vice-Chancellor when the value of the contract is more than twenty lakhs rupees and by the Registrar when its value does not exceed twenty lakhs rupees.

47. University to follow rules, regulations, norms of the regulating bodies.—Notwithstanding anything contained in this Act, University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

48. Appointment of Review Commission.—(1) The Chancellor shall, at least once in every five years, constitute a Commission to review the working of the University and to make recommendations.

(2) The Commission shall consist of not more than three eminent educationists, one of whom shall be the Vice-Chancellor, appointed by the Chancellor in consultation with the Government.

(3) The terms and conditions of appointment of the members shall be such as may be determined by the Chancellor.

(4) The Commission shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendations to the Chancellor.

(5) The Chancellor may take such action on the recommendations as he deem fit.

49. Officers and employees to be public servant.—Every officer and employee of the University shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

50. Proceedings not invalidated by vacancies.—No act or proceedings of any authority or body of the University shall be invalid on the grounds merely of the existence of any vacancy in or any defect in constitution of such authority or body.

51. Protection of action taken in good faith.—No suit shall be instituted against or other legal proceedings shall lie against or no damages shall be claimed from, the University, the authority or officer of the University, in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act or the regulations.

52. Sponsored Scheme.—Notwithstanding anything contained in this Act or the regulations, whenever the University receives funds from any State Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University—

- (a) the amount received shall be kept by the University in a separate account and shall be utilized for the purpose of the scheme only; and
- (b) the staff required to execute such scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.

53. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or the regulations, the Government may, by order or as occasion requires, do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act and the regulations, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. Every such order shall have effect as if such action had been taken under this Act or the regulations :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

54. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2016 and savings.—(1) The Himachal Pradesh National Law University Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

No. 7-635/2015-EXN-20962-980
Excise & Taxation Department
Himachal Pradesh.

Dated: Shimla, 1st September, 2016.

Addendum

In continuation to the Notification No. 7-635/2015-EXN-18211-32 dated 06.08.2016, after Sub-Para (vi) of Clause (e) of Sub-Rule 38 (1-AA) of the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986, the following Sub-Paras are added:

- (vii) The Collector (Excise) shall ensure that the L-1W licence is also granted to M/s HPBL inside such L-1S licensed-premises which is meant for storing the liquor of the other licensee(s) in the said godown.
- (viii) The Collector (Excise) shall further ensure that the I/c of M/s HPBL's L-1W is appointed before the sale of any such stored liquor brand.
- (ix) The renewal/registration and price fixation by the Competent Authority/Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh of the brands to be stored in the L-1S licensed premises may be verified before endorsement.

It is further notified that the existing number of the above Notification's Sub-Para (vii) may be read as Sub-Para (x) with immediate effect.

Sd/-
(Pushpendra Rajput)
Excise & Taxation Commissioner.

No. 7-635/2015-EXN-20981-999
Excise & Taxation Department
Himachal Pradesh.

Dated: Shimla 1st September, 2016.

Addendum

In continuation to the Notification No. 7-635/2015-EXN-18189-210 dated 06.08.2016, after Sub-Para (vi) of Clause (e) of Sub-Rule 38 (1-AAA) of the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986, the following Sub-Paras are added:—

- (vii) The Collector (Excise) shall ensure that the L-13W licence is also granted to M/s HPBL inside such L-13S licensed premises which is meant for storing the liquor of the other licensee(s) in the said godown.
- (viii) The Collector (Excise) shall further ensure that the I/c of M/s HPBL's L-13W is appointed before the sale of any such stored liquor brand.

- (ix) The renewal/registration and price fixation by the Competent Authority/Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh of the brands to be stored in the L-13S licensed-premises may be verified before endorsement.

It is further notified that the existing number of the above Notification's Sub-Para (viii) may be read as Sub-Para (x) with immediate effect.

Sd/-
(Pushpender Rajput)
Excise & Taxation Commissioner.

No. 7-635/2015-EXN-22077-22097
Excise & Taxation Department
Himachal Pradesh.

Dated: Shimla 9th September, 2016.

Addendum

In the existing Notification No. 7-635/2015-EXN-18211-32 dated 06.08.2016, after sub-para (ii) and before sub-para (iii) of clause (e) of Sub-Rule 38 (1-AA) of the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986, the following Sub-Para (ii)(a) is further added as under:—

- (ii) (a) In those cases where consequent upon 'any franchisee bottling agreement' between manufacturers/bottler licensee(s) of some other state and that of the Himachal Pradesh state exists & the brand registration/renewal for the current financial year has been done by the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh allowing such bottling, then the copy of L-1C licence of the D-2 or BWH-2 licence-holder in Himachal Pradesh as the case may be, will be enclosed alongwith the aforementioned application provided there is a specific agreement between the parties to that effect. It may be verified from the copy of the agreement that apart from authority to store such bottled brand(s) in the L-1C premises of the HP based manufacture/bottler licensee, it would be further agreed to amongst the parties that the permits and passes for the transport etc. of the IMFS brands are addressable to the L-1C premises of the HP based manufacture/bottler licensee. It should also be provided in the mutual consent agreement between the parties mentioned in sub para (iii) of the Notification (ibid) that such IMFS brands will be transported to and stored in the L-1S godown/licenced- premises of such L-1S license-holder applicant.

Sd/-
(Pushpendra Rajput)
Excise & Taxation Commissioner.

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009**OFFICE ORDER***Shimla-9, the 21st September, 2016*

No.P.F./LSA/Secretaries/2016/3526-3531.—Hon'ble the Executive Chairman, Himachal Pradesh State Legal Services Authority is pleased to grant 15 days Paternity leave w.e.f. 19.9.2016 to 3.10.2016 in favour of Shri Vivek Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Shimla and Kinnaur at Shimla.

Certified that Shri Vivek Sharma will join the same post and at the same station from where he proceeds on paternity leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Vivek Sharma would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Shimla and Kinnaur, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-

*Executive Chairman,
H.P. State Legal Services Authority.*

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009**OFFICE ORDER***Shimla-9, the 27th September 2016*

No. P.F./LSA/Secretaries/2016/3630-3636.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority is pleased to grant 4 (Four) days earned leave from 28.9.2016 to 1.10.2016 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Secretary, District Legal Services Authority, Solan & Sirmaur at Solan.

Certified that Shri Sidharth Sarpal will join the same post and at the same station from where he proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Solan & Sirmaur, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-

*Executive Chairman,
H.P. State Legal Services Authority.*

शहरी विकास विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 30 सितम्बर, 2016

संख्या: यू0 डी0-ए0 (3)1/2013-लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 सितम्बर, 2016 को ऐसी तारीख नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English Text of this Department notification No. UD-A(3)-1/2013-loose, dated 30.9.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 2016

No. UD-A(3)-1/2013-loose.—In exercise of the powers vested in him under section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2016, (Act No.16 of 2016), The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 30th day of September, 2016 as the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By order,
R.D. Dhiman
Principal Secretary (U.D.).

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला—2 30 सितम्बर, 2016

संख्या: यू0 डी0-ए0 (3)2/2010-1.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 सितम्बर, 2016 को ऐसी तारीख नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English Text of this Department notification No. UD-A(3)-2/2010-I, dated: 30-09-2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: Shimla-2, the 30.9.2016

No. UD-A(3)-2/2010-I.—In exercise of the powers vested in him under section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016, (Act No.17 of 2016), The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 30th day of September, 2016 as the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By order,
R.D. Dhiman
Principal Secretary (U.D.).

**INDUSTRIES DEPARTMENT
A-Section****NOTIFICATION***Shimla-2, the 30th September, 2016*

No. Ind.-A(B)8-3/2016.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri Sada Ram, Industrial Promotion Officer to the post of Manager, DIC (Class-II, Gazetted) in the pay scale of ₹10300-34800+₹4400 Grade pay in the Department of Industries, H.P. with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is also pleased to order the posting of Shri Sada Ram, Industrial Promotion Officer on his promotion as Manager, DIC (Class-II, Gazetted) in District Industries Centre, Una.

The officer shall remain on probation for a period of two years or till the date he retires from the Government service, whichever is earlier. He shall also exercise option for fixation of pay under the provisions of FR-22, within a period of one month from the date of issue of this Notification.

He shall join his duty and submit his joining report to this Department through the Director of Industries, H.P.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Inds.).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION***Dated: 27th September, 2016*

No.HHC/Admn.3(227)/86-I.—16 days commuted leave on and with effect from 31.08.2016 to 15.09.2016, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Siri Ram Verma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Siri Ram Verma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Siri Ram Verma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated: 27th September, 2016

No.HHC/Admn.3(221)/86-II.—27 days earned leave i.e. on and with effect from 08.08.2016 to 03.09.2016, with permission to suffix Sunday on 04.09.2016, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Ravinder Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Ravinder Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ravinder Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th September, 2016

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (IV), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (III), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head “2014-Administration of Justice” during the medical leave period of Ms. Akshi Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (III), Shimla w.e.f. 14.9.2016 after lunch till 5.10.2016 (1:00 p.m.) or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th September, 2016

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the newly created Court of Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at

Rampur Bushahr and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head “2014-Administration of Justice” with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th September, 2016

No.HHC/GAZ/14-267/2003.—Hon’ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days’ earned leave w.e.f. 24.9.2016 to 28.9.2016 in favour of Sh. Partap Singh Thakur, Central Project Co-ordinator H.P. High Court, Shimla.

Certified that Sh. Partap Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Partap Singh Thakur would have continued to hold the post of Central Project Co-ordinator, H.P. High Court, Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 27th September, 2016

No. HHC/GAZ/14-313/2010.—Hon’ble the Chief Justice has been pleased to grant 11 days’ earned leave w.e.f. 27.9.2016 to 7.10.2016 with permission to suffix Second Saturday, Sunday and Dussehra holidays falling w.e.f. 8.10.2016 to 16.10.2016 in favour of Smt. Divya Jyoti Patial, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Nalagarh, H.P.

Certified that Smt. Divya Jyoti Patial is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Divya Jyoti Patial would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Nalagarh, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated: 24th September, 2016

No.HHC/Admn.3(338)/92-I.—10 days earned leave on and with effect from 28.09.2016 to 07.10.2016, with permission to suffix second Saturday, Sunday, Dussehra Holidays and Sunday commencing from 08.10.2016 to 16.10.2016, is hereby sanctioned in favour of Shri B.L. Soni, Secretary of this Registry.

Certified that Shri B.L. Soni is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri B.L. Soni would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2016

No.HHC/Admn.16 (22)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Rama Kumari, Advocate as Oath Commissioner at Rajgarh, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION**

Dated: 24th September, 2016

No.HHC/Admn.3(189)/83-II.—05 days commuted leave on and with effect from 22.08.2016 to 26.08.2016, with permission to prefix Sunday on 21.08.2016, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत श्री मुनीष चौधरी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

किसम मुकद्दमा : तकसीम।

जगदीश चन्द

बनाम

सुदेश कुमारी बगैरा

तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं० 81, खतौनी नं० 150 ता 152, खसरा नं० 489, 490, 491, 493, 487, 486 कित्ता 6, रकबा तादादी 00—38—99 है० मी० वाक्या महाल करड़ियाल, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०। उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रत्यर्थी निम्नलिखित है :—

1. सुदेश कुमारी पुत्री श्री सुदामा, 2. तिलक राज पुत्र व 3. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीमती चुहड़ी देवी पत्नी श्री साली राम, 4. सत्या देवी विधवा श्री झंडू सभी निवासीगण गांव करड़ियाल, डाकघर फारियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र० को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील तरीके से न हो पा रही है व

प्रत्यार्थीगण की संख्या भी अधिक हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-10-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 14-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

ब अदालत श्री मुनीष चौधरी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

किसम मुकद्दमा : तकसीम।

जगदीश चन्द

बनाम

सुदेश कुमारी बगैरा

तकसीम जेर धारा 123 हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं० 14, खतौनी नं० 18, खसरा नं० 401, 856, कित्ता 2, रकबा तादादी 02-88-24 है० मी० वाक्या महाल करड़ियाल, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०। उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रत्यार्थी निम्नलिखित हैं :—

1. तिलक राज पुत्र व, 2. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीमती चुहड़ी देवी पत्नी श्री साली राम, 3. तानी राम पुत्र श्री खजाना राम सभी निवासीगण गांव करड़ियाल, डाकघर फारियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र० को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील तरीके से न हो पा रही है व प्रत्यार्थीगण की संख्या भी अधिक हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-10-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 14-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

ब अदालत श्री मुनीष चौधरी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किसम मुकद्दमा : तकसीम।

जगदीश चन्द

बनाम

सुदेश कुमारी बगौरा

तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 19, खतौनी नं0 51, 52, खसरा नं0 413, 422, 423, 420, 421, 424, कित्ता 6, रकबा तादादी 00-49-83 है0 मी0 वाक्य महाल करड़ियाल, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रत्यार्थी निम्नलिखित हैं :-

1. तिलक राज पुत्र व, 2. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीमती चुहड़ी देवी पत्नी श्री साली राम, 3. अश्वनी, 4. देस राज, 5. सुरिन्द्र कुमार पुत्रान श्री शिव शंकर, 6. अनिल कुमार, 7. विनोद कुमार पुत्रान व 8. कुमारी मोनिका पुत्री, 9. राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, 10. हरनाम सिंह, 11. मान सिंह पुत्रान श्री रोशन लाल, 12(a) उर्मिला देवी, 12(b) निर्मला देवी पुत्रियां श्रीमती नैना उर्फ नारायणी देवी, 13. अशोक कुमार, 14. हंस राज पुत्रान, 15. ऊषा कुमारी पुत्री श्री धनी राम, 16. कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम, 17(a) पार्वती देवी विधवा, 17(b) राकेश कुमार, 17(c) सुनील कुमार, 17(d) सुभाष चन्द पुत्रान, 17(e) रक्षा देवी, 17(f) स्वर्णा देवी पुत्रियां श्री खुशी राम, उर्फ बख्शी राम, 18. प्रकाश चन्द पुत्र श्री बेली राम, 19. वीना देवी पुत्री, 20. सैना देवी पत्नी स्व0 श्री राम लाल, 21. अमरती देवी पुत्री श्री राम रथ, 22. किशोर लाल पुत्र श्री हस्त राम, 23. जीवन कुमार पुत्र, 24. माया देवी पत्नी स्व0 श्री प्रशन चन्द, 25. औंकार चन्द, 26. सुदेश कुमार, 27. नरेश कुमार, 28. शादी लाल पुत्रान, 29. आशा देवी, 30. सीमा देवी, 31. सरोज देवी पुत्रियां, 32. लीला देवी पत्नी स्व0 श्री राये सिंह, 33. जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत राम, 34(a). बिसली देवी विधवा, 34(b). रणजीत कुमार, 34(c). शाम कुमार पुत्रान, 34(d). इन्दू देवी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, 35. वीर सिंह, 36. जीवन कुमार, 37. बलदेव सिंह पुत्रान, 38. चंचला देवी, 39. ऊषा देवी पुत्रियां, 40. रतनी देवी पत्नी स्व0 श्री बंसी लाल, 41. मोहिन्द्र सिंह, 42. सुरिन्द्र सिंह, 43. सुरजीत सिंह पुत्रान श्री होशियार सिंह, 44. रमेश चन्द, 45. कमल कुमार, 46. केवल कृष्ण पुत्रान श्री प्रकाश चन्द, 47(a). अन्जू देवी, 47(b). सुषमा देवी पुत्रियां कौशल्या देवी, 48. अंकित, 49. मोनू पुत्रान श्री बिशम्बर दास, 50. सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री देस राज, 51. जै चन्द, 52. राये चन्द पुत्रान श्री होशनाकू, 53. रघुवीर, 54. रछपाल, 55. सतपाल पुत्रान श्री जै चन्द, 56. प्रमोद, 57. मनोहर, 58. सतीश पुत्रान श्री राये चन्द, 59. अमरजीत पुत्र, 60. राये देवी पत्नी स्व0 श्री दूनी चन्द सभी निवासीगण गांव करड़ियाल, डाकघर फारियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील तरीके से न हो पा रही है व प्रत्यार्थीगण की संख्या भी अधिक हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-10-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन यावकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 14-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मुनीष चौधरी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

किसम मुकद्दमा : तकसीम।

जगदीश चन्द

बनाम

सुदेश कुमारी बगौरा

तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं० 18, खतौनी नं० 50, खसरा नं० 401/1, रकबा तादादी 01-63-58 है० मी० वाक्या महाल करड़ियाल, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०। उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रत्यार्थी निम्नलिखित है। :-

1. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री व, 2. तिलक राज पुत्र श्रीमती चुहड़ी देवी पत्नी श्री साली राम, 3. तरलोक चन्द, 4. हरनाम सिंह, 5. मान सिंह पुत्रान व, 6(a). उर्मिला देवी, 6(b). निर्मला देवी पुत्रियां श्रीमती नैना उर्फ नारयणी देवी, 7. अनिल कुमार, 8. विनोद कुमार पुत्रान व, 9. कुमारी मोनिका पुत्री, 10. राज कुमारी पत्नी स्व० श्री तिलक राज, 11. अशोक कुमार, 12. हंस राज पुत्रान, 13. ऊषा कुमारी पुत्री श्री धनी राम, 15(a). पार्वती देवी पत्नी विधवा, 15(b). राकेश कुमार, 15(c). सुनील कुमार, 15(d). सुभाष चन्द पुत्रान, 15(e). रक्षा देवी, 15(f). स्वर्णा देवी पुत्रियां श्री खुशी राम, उर्फ बख्शी राम, 16. प्रकाश चन्द पुत्र श्री बेली राम, 17. वीना देवी पुत्री, 18. सैना देवी पत्नी स्व० श्री राम लाल, 19. अमरती देवी पुत्री श्री राम रथ, 20. किशोर लाल पुत्र श्री हस्त राम, 21. जीवन कुमार पुत्र, 22. माया देवी पत्नी स्व० श्री प्रधान चन्द, 23. आँकार चन्द, 24. सुदेश कुमार, 25. नरेश कुमार, 26. शादी लाल पुत्रान, 27. आशा देवी, 28. सीमा देवी, 29. सरोज देवी पुत्रियां, 30. लीला देवी पत्नी स्व० श्री राये सिंह, 31. जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत राम, 32(a). बिसली देवी विधवा, 32(b). रणजीत कुमार, 32(c). शाम कुमार पुत्रान, 32(d). इन्दू देवी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, 33. वीर सिंह, 34. जीवन कुमार, 35. बलदेव सिंह पुत्रान, 36. चंचला देवी, 37. ऊषा देवी पुत्रियां, 38. रतनी देवी पत्नी स्व० श्री बंसी लाल, 39. मोहिन्द्र सिंह, 40. सुरिन्द्र सिंह, 41. सुरजीत सिंह पुत्रान श्री होशियार सिंह, 42. रमेश चन्द, 43. कमल कुमार, 44. केवल कृष्ण पुत्रान श्री प्रकाश चन्द, 45(a). अन्जु देवी, 45(b). सुषमा देवी पुत्रियां कौशल्या देवी, 46. अंकित, 47. मोनू पुत्रान श्री बिशम्बर दास, 48. सत्या देवी पत्नी स्व० श्री देस राज, 49. रघुवीर, 50. रछपाल, 51. सतपाल पुत्रान श्री जै चन्द, 52. प्रमोद, 53. मनोहर, 54. सतीश पुत्रान श्री राये चन्द, 55. अमरजीत पुत्र, 56. राये देवी पत्नी स्व० श्री दूनी चन्द सभी निवासीगण गांव करड़ियाल, डाकघर फारियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र० को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील तरीके से न हो पा रही है व प्रत्यार्थीगण की संख्या भी अधिक हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-10-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन यावकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 14-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

ब अदालत श्री मुनीष चौधरी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किसम मुकद्दमा : तकसीम।

जगदीश चन्द

बनाम

सुदेश कुमारी बगौरा

तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 49, खसरा नं0 252, 314, कित्ता 2, रकबा तादादी 01-08-85 है0 मी0 वाक्य महाल करड़ियाल, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रत्यार्थी निम्नलिखित है :-

1. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री व, 2. तिलक राज पुत्र श्रीमती चुहड़ी देवी पत्नी श्री साली राम, 3. तरलोक चन्द, 4. हरनाम सिंह, 5. मान सिंह पुत्रान व, 6(a). उर्मिला देवी, 6(b). निर्मला देवी पुत्रियां श्रीमती नैना उर्फ नारयणी देवी, 7. अनिल कुमार, 8. विनोद कुमार पुत्रान व, 9. कुमारी मोनिका पुत्री, 10. राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, 11. अशोक कुमार, 12. हंस राज पुत्रान, 13. ऊषा कुमारी पुत्री श्री धनी राम, 15(a). पार्वती देवी विधवा, 15(b). राकेश कुमार, 15(c). सुनील कुमार, 15(d). सुभाष चन्द पुत्रान, 15(e). रक्षा देवी, 15(f). स्वर्णा देवी पुत्रियां श्री खुशी राम, उर्फ बख्शी राम, 16. प्रकाश चन्द पुत्र श्री बेली राम, 17. वीना देवी पुत्री, 18. सैना देवी पत्नी स्व0 श्री राम लाल, 19. अमरती देवी पुत्री श्री राम रथ, 20. किशोर लाल पुत्र श्री हस्त राम, 21. जीवन कुमार पुत्र, 22. माया देवी पत्नी स्व0 श्री प्रधान चन्द, 23. औंकार चन्द, 24. सुदेश कुमार, 25. नरेश कुमार, 26. शादी लाल पुत्रान, 27. आशा देवी, 28. सीमा देवी, 29. सरोज देवी पुत्रियां, 30. लीला देवी पत्नी स्व0 श्री राये सिंह, 31. जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत राम, 32(a). बिसली देवी विधवा, 32(b). रणजीत कुमार, 32(c). शाम कुमार पुत्रान, 32(d). इन्दू देवी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, 33. वीर सिंह, 34. जीवन कुमार, 35. बलदेव सिंह पुत्रान, 36. चंचला देवी, 37. ऊषा देवी पुत्रियां, 38. रतनी देवी पत्नी स्व0 श्री बंसी लाल, 39. मोहिन्द्र सिंह, 40. सुरिन्द्र सिंह, 41. सुरजीत सिंह पुत्रान श्री होशियार सिंह, 42. रमेश चन्द, 43. कमल कुमार, 44. केवल कृष्ण पुत्रान श्री प्रकाश चन्द, 45(a). अन्जू देवी, 45(b). सुषमा देवी पुत्रियां कौशल्या देवी, 46. जै चन्द, 47. राये चन्द पुत्रान श्री होशकानू, 48. रघुवीर, 49. रछपाल, 50. सतपाल पुत्रान श्री जै चन्द, 51. प्रमोद, 52. मनोहर, 53. सतीश पुत्रान श्री राये चन्द, 54. अंकित, 55. मोनू पुत्रान श्री बिशम्बर दास, 56. सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री देस राज, 57. अमरजीत पुत्र, 58. राये देवी पत्नी स्व0 दूनी चन्द, 59. देस राज, 60 संसार चन्द पुत्रान श्री दलीपा सभी निवासीगण गांव करड़ियाल, डाकघर फारियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्खा नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील तरीके से न हो पा रही है व प्रत्यार्थीगण की संख्या भी अधिक हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-10-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन यावकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 14-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मुनीष चौधरी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किसम मुकद्दमा : तकसीम।

जगदीश चन्द

बनाम

सुदेश कुमारी बगौरा

तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 16, खतौनी नं0 25 ता 48, खसरा कित्ता 90, रकबा तादादी 12-23-12 है0 मी0, वाक्या महाल करड़ियाल, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रत्यार्थी निम्नलिखित है :-

1. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री व, 2. तिलक राज पुत्र श्रीमती चुहड़ी देवी पत्नी श्री साली राम, 3. तरलोक चन्द, 4. हरनाम सिंह, 5. मान सिंह पुत्रान व, 6(a). उर्मिला देवी, 6(b). निर्मला देवी पुत्रियां श्रीमती नैना उर्फ नारयणी देवी, 7. अनिल कुमार, 8. विनोद कुमार पुत्रान व, 9. कुमारी मोनिका पुत्री, 10. राज कुमारी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, 11. अशोक कुमार, 12. हंस राज पुत्रान, 13. ऊषा कुमारी पुत्री श्री धनी राम, 15(a). पार्वती देवी विधवा, 15(b). राकेश कुमार, 15(c). सुनील कुमार, 15(d). सुभाष चन्द पुत्रान, 15(e). रक्षा देवी, 15(f). स्वर्णा देवी पुत्रियां श्री खुशी राम, उर्फ बख्शी राम, 16. प्रकाश चन्द पुत्र श्री बेली राम, 17. वीना देवी पुत्री, 18. सैना देवी पत्नी स्व0 श्री राम लाल, 19. अमरती देवी पुत्री श्री राम रथ, 20. किशोर लाल पुत्र श्री हस्त राम, 21. जीवन कुमार पुत्र, 22. माया देवी पत्नी स्व0 श्री प्रधान चन्द, 23. औंकार चन्द, 24. सुदेश कुमार, 25. नरेश कुमार, 26. शादी लाल पुत्रान, 27. आशा देवी, 28. सीमा देवी, 29. सरोज देवी पुत्रियां, 30. लीला देवी पत्नी स्व0 श्री राये सिंह, 31. जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत राम, 32(a). बिसली देवी विधवा, 32(b). रणजीत कुमार, 32(c). शाम कुमार पुत्रान, 32(d). इन्दू देवी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, 33. वीर सिंह, 34. जीवन कुमार, 35. बलदेव सिंह पुत्रान, 36. चंचला देवी, 37. ऊषा देवी पुत्रियां, 38. रतनी देवी पत्नी स्व0 श्री बंसी लाल, 39. मोहिन्द्र सिंह, 40. सुरिन्द्र सिंह, 41. सुरजीत सिंह पुत्रान श्री होशियार सिंह, 42. रमेश चन्द, 43. कमल कुमार, 44. केवल कृष्ण पुत्रान श्री प्रकाश चन्द, 45(a). अन्जू देवी, 45(b). सुषमा देवी पुत्रियां कौशलया देवी, 46. जै चन्द, 47. राये चन्द पुत्रान श्री होशकानू, 48. रघुवीर, 49. रछपाल, 50. सतपाल पुत्रान श्री जै चन्द, 51. प्रमोद, 52. मनोहर, 53. सतीश पुत्रान श्री राये चन्द, 54. अंकित, 55. मोनू पुत्रान श्री बिशम्बर दास, 56. सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री देस राज, 57. अमरजीत पुत्र, 58. राये देवी पत्नी स्व0 दूनी चन्द, 59. देस राज पुत्र श्री दलीपा, 60 तानी पुत्र श्री खजाना, 61. फुलां देवी पत्नी स्व0 श्री नन्द लाल सभी निवासीगण गांव करड़ियाल, डाकघर फारियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्शा नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील तरीके से न हो पा रही है व प्रत्यार्थीगण की संख्या भी अधिक हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-10-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 14-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Tsering Chodon w/o Shri Samdup, r/o House No. MD21, THS Tibetan Colony Panthaghatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Smt. Tsering Chodon w/o Shri Samdup, r/o House No. MD21, THS Tibetan Colony Panthaghatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her daughter named—Ms. Kalsang Chodon d/o Smt. Tsering Chodon w/o Shri Samdup, r/o House No. MD21, THS Tibetan Colony Panthaghatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Ms. Kalsang Chodon	Daughter	21-08-1977

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of above named in the record of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 28-09-2016 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Shri Namgyal Dolma s/o Lt. Shri Wangchen, r/o House No. 50, Block-B, Tibetan Handicraft Society Sarwati Garden Estate Panthaghatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh .

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Shri Namgyal Dolma s/o Lt. Shri Wangchen, r/o House No. 50, Block-B, Tibetan Handicraft Society Sarwati Garden Estate Panthaghatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Kelsang Dhondup s/o Shri Namgyal Dolma s/o Lt. Shri Wangchen, r/o House No. 50, Block-B,

Tibetan Handicraft Society Sarswati Garden Estate Panthaghatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Mr. Kalsang Dhondup	Son	01-07-1967

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of above named in the record of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 23-09-2016 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

**In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Tsering Tashi s/o Shri Tenzin Niyma, r/o H. No. 16, Tibetan Colony Nabha, Shimla-4,
Tehsil & District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Tsering Tashi s/o Shri Tenzin Niyma, r/o H. No. 16, Tibetan Colony Nabha, Shimla-4, Tehsil & District Shimla has preferred an application to the undersigned for registration the date of death of his grand father namely Sonam Dorjee (DOD 08-10-2010) s/o Dudup in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 29-10-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 28th day of September, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

**In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Sanjay Kumar s/o Shri Ganga Ram, r/o Nirmal Ganga Niwas, Dabri Lane Phagli,
Shimla-4, Tehsil & District Shimla, H.P. . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Sanjay Kumar s/o Shri Ganga Ram, r/o Nirmal Ganga Niwas, Dabri Lane Phagli, Shimla-4, Tehsil & District Shimla has preferred an application to the undersigned for registration of the name and date of birth of his daughter namely Vedika Guleria (DOB 26-2-2015) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 5-10-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 5th day of September, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).